Regd. Office: 45, Chinubhai Tower,

Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009. Tel.: 079 - 2658 3309 • E-mail : sawacabusiness@yahoo.com

Website: www.sawacabusiness.com



To,

Date: - 11th April, 2024

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street Fort.

Mumbai:-400 001

BSE SCRIPT CODE: - 531893

Subject: - Newspaper Publication

Dear Sir/Ma'am,

In compliance with Regulation 84 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30, 47 and other applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") please find enclosed herewith the copies of newspaper publications made by the Company on 11th April, 2024, informing shareholders about the extension of the Right Issue Closure date from 12th April, 2024 to 22nd April, 2022, in following newspapers:-

Name of the Newspaper	Language	Edition
Financial Express	English	All Edition
Jansatta	Hindi	All Edition
Financial Express	Gujarati	Ahmedabad Edition

Kindly take the same in your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For, Sawaca Business Machines Ltd

Shetal Satishkumar Shah

Managing Director

DIN: 02148909

Encl.: As Above

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website : www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

	NEW TWO COMES			STAND	ALONE		80	zi.	CONSOLIDATED				
Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended		uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
INU.	ľ	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
X - 5		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2	Total income from operations (net) Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and/or	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
	extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)		82	-		46.42	46.42		2			46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334.04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96.41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
3	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	0.30350	800.75	Best Tile		3132,730	1,546.52	533777383	014752	0000000	1816777.00	83000034	1,576.50
8	Earnings Per Share (EPS)												,
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

NOTES:

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'

of UFCs available at www.utimf.com.

E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867)

Information Memorandum cum Application Form.

Participants ("DP") as on April 5, 2024.

sending an e-mail at rta@alankit.com.

in the Notice of the EGM.

Members may note that:

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

the EGM and join the EGM through VC/OAVM.

the cut-off date. All the members are informed that:

be entitled to cast their vote again;

Landline-022-62278000

Mumbai

April 10, 2024

schemes portfolio through any of the following means

HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.

MUTUALFUNDS

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024.

Haq, ek behtar zindagi ka.

2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

www.utimf.com

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of

schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in

accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI

Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated,

May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half

year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its

a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format

b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free).

d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra [E], Mumbai - 400051 Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund

distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS

HOSPITALS

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075

Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services

Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-

Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8

2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry

of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023

and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited

Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA

i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by

The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the

instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during

Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the

business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024,

may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL

1. The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;

The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);

the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;

3. The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);

existing user ld and password can be used for casting vote;

The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on

 The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;

5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice

of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login

ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the

. the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once

the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not

· a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner,

DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli

(holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi

Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,

Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at

as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting

the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

(www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com.

Toll Free No.: 1800 266 1230

For & on behalf of the Board of Directors

CEO & Whole-time Director

edanta

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.
No.	name of emanements	. 66 16.	01101100	From	То	
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986
	Dharav Rajendra Mehta	002117400	100	000101112	000707071	027300
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599
-	Dharav Rajendra Mehta	COLITTAGA	100	004107300	00+100000	023033
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556
	Vinod Kumar Jain	1000122		786498151	786498160	020000
	Jayshri Janak Jesrani					13
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594
1	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani	řî				
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934
	Mrs. Shardaben A Shah	001110013	200	00-200-02	00-120001	020004

Place: New Delhi Date: April 11, 2024 **For Vedanta Limited** Prerna Halwasiya

QUANTUM MUTUAL FUND

FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India

yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short

For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund)

Managing Director and Chief Executive Officer

Date: April 10, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

VEDANTA LIMITED

(Sanjay Suryakant Dighe)

DIN: 02042603

(Rupees in Millions)

CIN: L13209MH1965PLC291394

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



Place: Mumbai

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

Jimmy A Patel

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH. MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024 PERIOD EXTENDED

FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117.

*Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part. Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see"Terms of the Issue- Procedure

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad

For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964

> UNITED BREWERIES LIMITED

CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distinctive No.		Name of the Shareholder SANJIV KAPUR
No.	No.	No.	Shares	From	То	1100010000
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

NOTICE UNIVERSAL CABLES LTD

SATNA, MADHYA PRADESH - 485005

dealing in anyway with these shares.

Date: 11.04.2024

For UNITED BREWERIES LIMITED

AMIT KHERA COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905)

Notice is hereby given that Share Certificate Nos 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580, Dt. 10.04,2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against dealing in any way with these shares. work of "Deployment of maintenance team t maintenance of optic fibre cable network and upkee of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one ye on same terms and conditions".

Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document available on https://www.railtel.in, https:// eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All futur ddendum/ Corrigendum etc. will be uploaded or RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders ave to submit their bids on GeM Portal only.

SALE NOTICE MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

Name and address of Applicants:

Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit. A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 560025

Mudumbi Padmanabhan

(A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06* April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 10th May 2024 from 12:00 noon till 04:00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST)

Last Date of EMD Submission: 7th May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

Sr. No	Block	Details of assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (Rs)	Incrementa value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

Important Notes:

1. E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approve service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

- . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. . All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction
- Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net, . The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction
- service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net .The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their
- independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. Place: Kolkata

KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes:

- 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100 168 (toll free number)
- 2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in
- 3) Written Request (letter) to: a) Registered office or any of the Investor Service Centres of
- Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and mobile number to help us serve better.

For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Date : April 10, 2024

Authorised Signatory Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

(Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurk Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. Corporate Office: 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla

Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. Corporate Identification Number (CIN): U67190MH2021PTC360838

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

Ahmedabad

financialexp.epapr.in

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

investor@artemishospitals.com.

Company Secretary & Compliance Officer

Poonam Makkar

For Artemis Medicare Services Limited

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krysfal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

STANDALONE CONSOLIDATED Particulars Nine Months Ended Quarter Ended Nine Months Ended Year Ender Quarter Ended Year Ended 31-Mar-23 30-Sep-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Dec-23 30-Sep-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Mar-23 31-Dec-23 Unaudited Unaudited Jnaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations (net) 2,730.26 2,277.08 1,847.42 7,110.50 4,995.64 6.855.05 2,830.74 2,345.23 1,911.61 7,346.82 5,153.92 7,076.36 Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or 116.81 157.70 117.81 316.53 390.47 extraordinary items) 151.79 146.96 410.05 312.99 386.03 146.73 413.14 Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or 46,42 extraordinary items) 46.42 46.42 46.42 Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or 124.44 118.02 334.04 127.27 291.69 384.13 extraordinary items) 94.51 290.61 382.06 118.47 94.39 332.83 Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other 331.19 293.97 387.68 Comprehensive Income (after tax) 124.69 116.47 96.41 293.76 384.56 128.39 117.22 95.28 331.1 Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs. 10/-) 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance 1,576.50 1,546.52 Sheet of previous accounting year Earnings Per Share (EPS) Basic (not annualised) 10.80 33.15 33.33 10.24 8.20 28.99 25.22 11.04 10.28 8.19 25.31 28.88

NOTES:

Place: Mumbai

Date: April 10, 2024

Diluted (not annualised)

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024 2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

25.22

33.15

11.04

10.28

8.19

28.88

28.99

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

10.24

For & on behalf of the Board of Directors

25.31

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

(Rupees in Millions)

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000. 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distinctive No.		Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

> For UNITED BREWERIES LIMITED AMIT KHERA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

MUTUALFUNDS



8.20

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

10.80

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.
- Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in' d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai April 10, 2024 Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Phone: 022 - 66786666, UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided
- The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the EGM.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer



VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

33.33

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.
No.	Name of onatenoider(s)	Tollo No.	Onares	From	То	Certificate No.
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403	100	003/0///2	003707071	027900
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599
2	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004130033	029399
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556
3	Vinod Kumar Jain	10009122	20	786498151	786498160	020330
	Jayshri Janak Jesrani					
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani					
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934
3	Mrs. Shardaben A Shah	30L110019	200	004230402	004233031	023334

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

For Vedanta Limited

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



Place: Mumbai

Date: April 10, 2024

QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

1º Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

DIN: 00109211

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH. MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024. Date: 10th April, 2024 For, Sawaca Business Machines Limited

Place: Ahmedabad

Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

UNIVERSAL CABLES LTD SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-

NOTICE

11091515 of the Company standing registered in e names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share ertificates should lodge such claim with the company at its registered office at the address iven above within one month from the date of this mouncement. The Public are cautioned against aling in anyway with these shares. Name and address of Applicants

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 560025 Date: 11.04.2024

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580 Dt. 10.04.2024 callTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

ER for a period of 2 years and extendable by one yea on same terms and conditions? Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document i available on https://www.railtef.in, https:// eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future ddendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

work of "Deployment of maintenance team for

naintenance of optic fibre cable network and upkeed

of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL

SALE NOTICE MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

(A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700 E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST)

(With unlimited extension of 5 minutes each)

Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private

Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022 Sr. Block Reserve Price Earnest Money Incremental Details of Deposit (Rs) value (Rs) No

1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

- ., E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does
- Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms

and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction

not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

- service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. . The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net
- 5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012

E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com** Investors can request for a physical copy or electronic copy of

the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number) 2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to : a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New

No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better.

For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place : Mumbai Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

(Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

Corporate Identification Number (CIN): U67190MH2021PTC360838 Chandigarh

financialexp.epapr.in _______

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystai-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(Rupees in Millions)

				STAND	ALONE	CONSOLIDATED									
Sr. No.		Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	C	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended		
NU.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23		
				Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36		
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386,03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47		
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	8	500			46.42	46.42	71		13	8	46.42	46.42		
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124,44	118.02	94.51	334,04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13		
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96,41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68		
6	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115,24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24		
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	1000000	5.279.000 ()	775334901	109.00000000		1,546.52	300-000-51b	3.79.400 -99 *6.600.	201.00.0040	5.000 00 0000		1,576.50		
В	Earnings Per Share (EPS)						Secretary X						-00-10000 mi		
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33		
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33		

NOTES:

- 1 The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024.
- 2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystai-group.com.
- Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification,

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distin	ctive No.	
No.	No.	No.	Shares	From	То	
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

Place: Bengaluru COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER Date: 10.04.2024

AMIT KHERA

MUTUALFUNDS

Place: Mumbai

Date: April 10, 2024



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio> Example HYP '123456789' to 5607090.
- Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- Email: Send an email to 'service@uti.co.in'
- Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai

April 10, 2024

Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-L65991MH2002PLC137867]. For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8. 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA

i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote; Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not
- be entitled to cast their vote again; the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner
- DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the
- Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited



VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

For & on behalf of the Board of Directors

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.
No.	Name of Shareholder(3)	Tollo IVo.	Silaies	From	То	Certificate No.
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403	100	003/01/12	003707071	027900
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599
2	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004130033	029399
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556
٥	Vinod Kumar Jain	1009122	20	786498151	786498160	020550
	Jayshri Janak Jesrani					
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani					
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934
5	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200	004293432	004293031	029934

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

For Vedanta Limited



Place: Mumbai

QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1th Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbal - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Date: April 10, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees , shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer. This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or

Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue. Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday

22nd April, 2024, Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in th LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

UNIVERSAL CABLES LTD REGD OFFICE: P.O. BIRLA VIKAS, SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing olio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831 11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against dealing in anyway with these shares. Name and address of Applicants:

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 56 Date: 11.04.2024

Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

RALTIL (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190, 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580. Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of 'Deployment of maintenance team for maintenance of optic fibre cable network and upkeed of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one year on same terms and conditions Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https:// procure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders

have to submit their bids on GeM Portal only.

RailTel

(A Govt. of India undertaking)

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

SALE NOTICE

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each)

Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024

formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal

(Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7th May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate

Reserve Price Earnest Money Incremental Deposit (Rs) assets value (Rs) Land along with assets at 19,00,66,500 1,90,00,000 20,00,000 1 Block A Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale Plant & Machinery, Office Block B Equipments, Furniture & 1,18,58,850 11,85,0000 1,00,000 Fixtures and Vehicles of

the Corporate Debtor

 E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS. WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does

not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets

online e-auction Bid Form. Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at

5.The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

Place: Kolkata KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012

E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024

NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual)

Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to : a) Registered office or any of the Investor Service Centres of

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Date : April 10, 2024

Place : Mumbai **Authorised Signatory** Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. Corporate Office: 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.

Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad financialexp.epapr.in Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

	B-000 - 1000 0 1000 0 000			STAND	ALONE					CONSO	LIDATED		
Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	0	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
140		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117,81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)		-			46.42	46.42		15	5	15	46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334.04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291,69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96.41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
6	Paid-up equity share capital	865487-1	0.05033	82.00	(A)(4)(3)	5000	152100	973335	8390000	393,015	255537		535535
	(Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year						1,546.52						1,576.50
8	Earnings Per Share (EPS)						3000000000						CM4200400
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

Place : Mumbai Date: April 10, 2024

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

For & on behalf of the Board of Directors (Sanjay Suryakant Dighe)

CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

(Rupees in Millions)

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	100 C	Certificate	No. of	of Distinctive No.		Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	Hame of the charenolaer
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

AMIT KHERA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

MUTUALFUNDS



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.
- b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'
- d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai April 10, 2024

Toll Free No.: 1800 266 1230

www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbal - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-L65991MH2002PLC137867]. For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414 Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075

Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held it

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com.

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM: The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the

- instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the
- business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- 2. The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST):
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST); The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday. April 26, 2024
- and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only; 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice
- of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- Members may note that:
- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohl (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the
- Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallav Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary a investor@artemishospitals.com. For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar



VEDANTA LIMITED

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

CIN: L13209MH1965PLC291394

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof: Distinctive Numbers

၂ ၃.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distillotive	, italibers	Certificate No.	
No.	Traine or enarched (e)		onal co	From	То		
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta Dharav Rajendra Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986	
2	Rita Ramanlal Naik Dharav Rajendra Mehta	SGL117484	100	864157936	864158035	829599	
3	Madhu Jain Vinod Kumar Jain	M009122	20	392877951 786498151	392877960 786498160	820556	
4	Jayshri Janak Jesrani Mr. Janak Doongarsey Jesrani Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594	
5	Mr. Aroonbhai Shah Mrs. Shardaben A Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934	
		12			Fo	or Vedanta Limited	

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1º Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020

Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel

> > Managing Director and Chief Executive Officer

DIN: 00109211

Date: April 10, 2024

*Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH. MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH. MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024 PERIOD EXTENDED

Place: Mumbai

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it
*Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying
to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further
details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue. Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday

22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024. Date: 10th April, 2024 For, Sawaca Business Machines Limited

Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi

NOTICE **UNIVERSAL CABLES LTD**

Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof ha been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against aling in anyway with these shares. Name and address of Applicants

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor 101, Richmond Road, Bangalore 560025 Date: 11.04.2024

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580 Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

work of "Deployment of maintenance team for

naintenance of optic fibre cable network and upkeep

of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL

ER for a period of 2 years and extendable by one yea on same terms and conditions" Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document available on https://www.railtel.in, https:// eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future kiddendum/ Corrigendum etc. will be uploaded or RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

SALE NOTICE

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-auction: 10th May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each)

Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private

Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate

formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022 Block Reserve Price Earnest Money Incremental Details of Deposit (Rs) value (Rs) assets Land along with assets at 19,00,66,500 1,90,00,000 20,00,000 Block A Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale

Block B Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & 1,18,58,850 11,85,0000 1,00,000 Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS

WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party, potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms

and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. I. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net

5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. Place: Kolkata

KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46. BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to:

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New

No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Sd/-Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited).

Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

Place: Gurugram financialexp.epapr.in

Date: April 10, 2024



Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ahmedabad

New Delhi

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

STANDALONE

STANDALONE CONSOLIDATED	LIDATED												
Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	G	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
I W.	1	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117,81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)		8.0	5.0		46.42	46.42	50				46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334.04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96.41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
3	Paid-up equity share capital	8653855	25534	5084	553333	1751/2000	555933	3(57)(55)	1. Carrier	58576	157316173	\$253NA	888186
	(Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year						1,546.52						1,576.50
3	Earnings Per Share (EPS)						20000000000						5400000000
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

- The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.
- 3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

Place : Mumbai Date: April 10, 2024

CONSOLIDATED

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

For & on behalf of the Board of Directors

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distino	ctive No.	Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	Traine or the onarcholder
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

AMIT KHERA Date: 10.04.2024 COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER





Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

schemes portfolio through any of the following means

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.
- Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'

Information Memorandum cum Application Form.

 d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai April 10, 2024

Toll Free No.: 1800 266 1230

www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024. The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the

website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held i

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com.

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- Members may note that:

fair and transparent manner.

Date: April 10, 2024 Piace: Guargram xp. epapr. in

- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM; a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories
- as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohl (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallav Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary a investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Office



VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

(Rupees in Millions)

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof: C Distinctive Numbers

5.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distilletive	Nullibers	Certificate No.	
No.	rame of chareneraci(s)	1 0110 110.	Gilardo	From	То	ocitimodic ito:	
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986	
	Dharav Rajendra Mehta	002117400	100	000101112	003707071	027 300	
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599	
_	Dharav Rajendra Mehta	002117404	100	00+107000	004100000	023333	
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556	
J	Vinod Kumar Jain	10003122	20	786498151	786498160	020300	
	Jayshri Janak Jesrani						
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594	
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani						
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934	
J	Mrs. Shardaben A Shah	002110013	200	00-200-02	00-200001	020004	
		1.0			Fo	or Vedanta Limite	

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Bengaluru



QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

18 Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

DIN: 00109211

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY

*Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE

FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117.

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

NOTICE UNIVERSAL CABLES LTD SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of dudients share and fishers in several thereof here of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against

ling in anyway with these shares. Name and address of Applicants Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 560025

Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

the Corporate Debtor

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580 Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of "Deployment of maintenance team f naintenance of optic fibre cable network and upkeer f associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one year

on same terms and conditions'

Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document available on https://www.railtel.in, https:/ procure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded or RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700 E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

SALE NOTICE

Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST)

(With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST)

Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private

Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate

formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal

Sr. No	Block	Details of assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (Rs)	Incrementa value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture &	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

1. E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS. AS IS WHAT IS BASIS WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or

modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party, potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net.

I. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their

independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. Place: Kolkata KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited

Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024

NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual

Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI

Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com** Investors can request for a physical copy or electronic copy of

the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in 3) Written Request (letter) to :

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New

No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Sd/-Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited).

Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in.

Corporate Identification Number (CIN): U67190MH2021PTC360838

Date: 10th April, 2024 For, Sawaca Business Machines Limited Place : Ahmedabad Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystai-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(Rupees in Millions)

				STAND	ALONE			II		CONSO	LIDATED		
Sr. No.		Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	C	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
NU.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
	0:	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386,03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	8	500			46.42	46.42	71		13	8	46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124,44	118.02	94.51	334,04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96,41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
6	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115,24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	1000000	5.279.000 ()	775334901	109.00000000		1,546.52	300-000-51b	3.79.400 -99 *6.600.	201.00.0040	5,55,50		1,576.50
В	Earnings Per Share (EPS)						Secretary X						-00-10000 mi
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

NOTES:

- 1 The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024.
- 2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystai-group.com.
- Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification,

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distinctive No.		Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

Place: Bengaluru COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER Date: 10.04.2024

AMIT KHERA

MUTUALFUNDS

Place: Mumbai

Date: April 10, 2024



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio> Example HYP '123456789' to 5607090.
- Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- Email: Send an email to 'service@uti.co.in'
- Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai

April 10, 2024

Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-L65991MH2002PLC137867]. For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8. 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA

i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote; Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not
- be entitled to cast their vote again; the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner
- DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner. In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the
- Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited



VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

For & on behalf of the Board of Directors

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.
No.	Name of Shareholder(3)	Tollo IVo.	Silaies	From	То	Certificate No.
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403	100	003/01/12	003707071	027900
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599
2	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004130033	029399
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556
٥	Vinod Kumar Jain	1009122	20	786498151	786498160	020550
	Jayshri Janak Jesrani					
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani					
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934
5	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200	004293432	004293031	029934

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

For Vedanta Limited



Place: Mumbai

QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1th Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbal - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Date: April 10, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees , shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer. This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or

Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue. Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday

22nd April, 2024, Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in th LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

UNIVERSAL CABLES LTD REGD OFFICE: P.O. BIRLA VIKAS, SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing olio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831 11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against dealing in anyway with these shares. Name and address of Applicants:

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 56 Date: 11.04.2024

Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

RALTIL (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190, 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580. Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of 'Deployment of maintenance team for maintenance of optic fibre cable network and upkeed of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one year on same terms and conditions Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https:// procure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders

have to submit their bids on GeM Portal only.

RailTel

(A Govt. of India undertaking)

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

SALE NOTICE

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each)

Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024

formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal

(Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7th May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate

Reserve Price Earnest Money Incremental Deposit (Rs) assets value (Rs) Land along with assets at 19,00,66,500 1,90,00,000 20,00,000 1 Block A Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale Plant & Machinery, Office Block B Equipments, Furniture & 1,18,58,850 11,85,0000 1,00,000 Fixtures and Vehicles of

the Corporate Debtor

 E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS. WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does

not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets

online e-auction Bid Form. Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at

5.The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

Place: Kolkata KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012

E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024

NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual)

Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to : a) Registered office or any of the Investor Service Centres of

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Date : April 10, 2024

Place : Mumbai **Authorised Signatory** Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. Corporate Office: 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.

Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad financialexp.epapr.in Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

STANDALONE CONSOLIDATED Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ender Quarter Ended Nine Months Ended | Year Ended 31-Mar-23 30-Sep-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Dec-23 30-Sep-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Mar-23 31-Dec-23 Unaudited Unaudited Jnaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations (net) 2,730.26 2,277.08 1,847.42 7,110.50 4,995.64 6.855.05 2,830.74 2,345.23 1,911.61 7,346.82 5,153.92 7,076.36 Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or 116.81 312.99 157.70 117.81 316.53 390.47 extraordinary items) 151.79 146.96 410.05 386.03 146.73 413.14 Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or 46,42 extraordinary items) 46.42 46.42 46.42 Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or 124.44 118.02 334.04 127.27 291.69 384.13 extraordinary items) 94.51 290.61 382.06 118.47 94.39 332.83 Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other 331.19 293.97 387.68 Comprehensive Income (after tax) 124.69 116.47 96.41 293.76 384.56 128.39 117.22 95.28 331.1 Paid-up equity share capital 115.24 (Face Value per share Rs. 10/-) 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 115.24 Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance 1,546.52 1,576.50 Sheet of previous accounting year Earnings Per Share (EPS) Basic (not annualised) 10.80 33.15 33.33 10.24 8.20 28.99 25.22 11.04 10.28 8.19 25.31 28.88

NOTES:

Diluted (not annualised)

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024 2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

25.22

33.15

11.04

10.28

8.19

28.88

28.99

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

10.24

For & on behalf of the Board of Directors

25.31

33.33

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

(Rupees in Millions)

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000. 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distin	ctive No.	Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	Traine of the onaronolasi
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

> For UNITED BREWERIES LIMITED AMIT KHERA

> > RailTel

(A Govt. of India undertaking)

(CIN: U64202DL2000G0I107905)

GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190

4850376, 4850510, 4850542 & 4850580

Dt. 10.04.2024

work of "Deployment of maintenance team for

naintenance of optic fibre cable network and upkeed

of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL

ER for a period of 2 years and extendable by one yea

Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document i

available on https://www.railtef.in, https://

eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future

ddendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on

RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

on same terms and conditions?

callTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

MUTUALFUNDS

Place: Mumbai

Date: April 10, 2024



8.20

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

10.80

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.
- b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in' d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

of UFCs available at www.utimf.com.

Mumbai April 10, 2024 Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Phone: 022 - 66786666, UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075

Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided
- The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST); The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024
- and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only; 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice
- of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the EGM.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the
- Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited Poonam Makkar

Company Secretary & Compliance Officer



VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof.

Name of Shareholder(s)	Folio No	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.	
Name of Shareholder(5)	TOILO NO.	Silaies	From	То	Certificate No.	
Ritaben Rajendrabhai Mehta	SCI 117/193	100	060707770	962707971	827986	
Dharav Rajendra Mehta	3GL117403		003/0///2	003707071	021900	
Rita Ramanlal Naik	SCI 117/19/	100	86/157036	86/158035	829599	
Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004130033	029399	
Madhu Jain	M000122	20	392877951	392877960	820556	
Vinod Kumar Jain	10009122	20	786498151	786498160	020330	
Jayshri Janak Jesrani						
Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594	
Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani						
Mr. Aroonbhai Shah	SGI 110010	200	864205452	86/205651	829934	
Mrs. Shardaben A Shah	30L110019	200	004233432	004233031	029304	
	Dharav Rajendra Mehta Rita Ramanlal Naik Dharav Rajendra Mehta Madhu Jain Vinod Kumar Jain Jayshri Janak Jesrani Mr. Janak Doongarsey Jesrani Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani Mr. Aroonbhai Shah	Ritaben Rajendrabhai Mehta Dharav Rajendra Mehta Rita Ramanlal Naik Dharav Rajendra Mehta Madhu Jain Vinod Kumar Jain Jayshri Janak Jesrani Mr. Janak Doongarsey Jesrani Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani Mr. Aroonbhai Shah SGL 110019	Ritaben Rajendrabhai Mehta Dharav Rajendra Mehta Rita Ramanlal Naik Dharav Rajendra Mehta Madhu Jain Vinod Kumar Jain Jayshri Janak Jesrani Mr. Janak Doongarsey Jesrani Mr. Aroonbhai Shah SGL117483 100 SGL117484 100 M009122 20 SGL106339 232	Ritaben Rajendrabhai Mehta Dharav Rajendra Mehta Rita Ramanlal Naik Dharav Rajendra Mehta Madhu Jain Vinod Kumar Jain Jayshri Janak Doongarsey Jesrani Mr. Janak Doongarsey Ranchhoddas Jesrani Mr. Aroonbhai Shah Folio No. Shares From 863707772 864157936 864157	From To	

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

For Vedanta Limited

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



Place: Mumbai

Date: April 10, 2024

QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

1º Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited

NOTICE NO. 1 / 2024

DIN: 00109211

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH. MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue. Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday

22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024. Date: 10th April, 2024 For, Sawaca Business Machines Limited

Place: Ahmedabad

Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 560025 Date: 11.04.2024

NOTICE **UNIVERSAL CABLES LTD**

SATNA, MADHYA PRADESH - 485005

Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-

11091515 of the Company standing registered in

e names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumb

Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan

have been lost and that the application for the issue

duplicate share certificates in respect thereof has

been made to the Company. Any person who

has/have any claim in respect of the said share

ertificates should lodge such claim with the company at its registered office at the address

iven above within one month from the date of this

mouncement. The Public are cautioned against

Name and address of Applicants

ealing in anyway with these shares.

SALE NOTICE MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST)

Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private

Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022 Sr. Block Details of Reserve Price Earnest Money Incremental

No		assets	(Rs)	Deposit (Rs)	value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS.

WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms

and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. . The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at

property at their own expenses and satisfy themselves.

https://ncltauction.auctiontiger.net 5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the

KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012

E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.www.amfiindia.com

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number) 2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to : a) Registered office or any of the Investor Service Centres of

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

Kolkata

(Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited).

financialexp.epapr.in _______

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystai-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

				STAND	ALONE		. 23			CONSO	LIDATED		
Sr. No.		Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	C	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
140.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
	1	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Œ.	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)		545	1/2		46.42	46.42	26	34	2		46.42	46,42
1	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334.04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96.41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
3	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
5.	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year						1,546.52						1,576.50
3	Earnings Per Share (EPS)						W						1/4
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28,99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'

of UFCs available at www.utimf.com.

E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

Information Memorandum cum Application Form.

Landline-022-62278000

Mumbai

April 10, 2024

schemes portfolio through any of the following means

HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.

MUTUALFUNDS

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

www.utimf.com

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of

schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in

accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI

Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated,

May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half

year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its

a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format

b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free).

d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Phone: 022 - 66786666, UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Toll Free No.: 1800 266 1230

Haq, ek behtar zindagi ka.

For & on behalf of the Board of Directors

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

vedanta

VEDANTA LIMITED

(Rupees in Millions)

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in **NOTICE**

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.
No.	Name of Shareholder(s)	TOILO NO.	Silaies	From	То	Certificate No.
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986
1	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403	100	003101112	003707071	021900
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004100000	029399
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556
3	Vinod Kumar Jain	101009122	20	786498151	786498160	020330
	Jayshri Janak Jesrani		232	865440796		
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339			865441027	831594
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani					
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934
3	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200	004293432	004293031	029934
					Fo	or Vedanta Limited

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



Place: Mumbai

Date: April 10, 2024

QUANTUM MUTUAL FUND

FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1º Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

DIN: 00109211

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED CIN: L85110DL2004PLC126414

OUR SPECIALITY IS YOU

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075

Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024.

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the

- instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the
- business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means; The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only; 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice
- of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- . the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the EGM.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited Poonam Makkar

Company Secretary & Compliance Officer

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Date: 10th April, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Place: Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director



CIN: L36999KA1999PLC025195 Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distin	ctive No.	Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

> For UNITED BREWERIES LIMITED AMIT KHERA COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

NOTICE UNIVERSAL CABLES LTD

SATNA, MADHYA PRADESH - 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue f duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share ertificates should lodge such claim with the company at its registered office at the address iven above within one month from the date of this mouncement. The Public are cautioned against

Name and address of Applicants: Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Bangalore 560025 Date: 11.04.2024

ealing in anyway with these shares.

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580 Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

work of "Deployment of maintenance team for

maintenance of optic fibre cable network and upkeed

of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL

ER for a period of 2 years and extendable by one year on same terms and conditions". Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https:// eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

(A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700 E-Auction

SALE NOTICE

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04:00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST)

Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private

Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022 Reserve Price Earnest Money Incremental Sr. Block Details of

No		assets	(Rs)	Deposit (Rs)	value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS,

- WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the
- Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets
- online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. . The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at
- https://ncltauction.auctiontiger.net 5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves.

KULDEEP VERMA Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com

Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com** Investors can request for a physical copy or electronic copy of

the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number) 2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to : a) Registered office or any of the Investor Service Centres of

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place : Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read

all scheme related documents carefully.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.

Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838 Lucknow

financialexp.epapr.in _______

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystai-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

				STAND	ALONE			CONSOLIDATED					
Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
NO.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	*		85	a	46.42	46.42	15	35	-	8	46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334,04	290.61	382.06	127.27	118,47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96,41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
6	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115,24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	V 1000000000000000000000000000000000000	7.53-76.00	1000/037	500000000000000000000000000000000000000		1,546.52	ST S			***************************************		1,576.50
8	Earnings Per Share (EPS)												
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

NOTES:

- 1 The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024. 2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.
- Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

For & on behalf of the Board of Directors

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates. Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to

the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distino	ctive No.	Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

For UNITED BREWERIES LIMITED

AMIT KHERA COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

MUTUALFUNDS

Place: Mumbai

Date: April 10, 2024



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated, May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio> Example HYP '123456789' to 5607090.
- b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000

d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'
- of UFCs available at www.utimf.com. Mumbai

April 10, 2024

Toll Free No.: 1800 266 1230

www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (El, Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. Ilnvestment Manager for UTI Mutual Fundi E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-L65991MH2002PLC137867].

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Kev Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024. The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the

website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the
- instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM. Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the
- business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024
- may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST); The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday. April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote; Members may note that:
- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
- a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories
- as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner

DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli

- (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamaia Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer



VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.	
No.	Hame of onarcholder(3)	Tollo No.	Onares	From	То	Octumente No.	
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986	
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403	100	003/0///2	003707071	027900	
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599	
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404	100	004137930	004130033	029399	
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556	
3	Vinod Kumar Jain	10009122	20	786498151	786498160	020550	
	Jayshri Janak Jesrani						
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594	
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani						
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934	
3	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200	004293432	004293031	029934	
-	Wild. Onardaben A Onan	-		-			

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

For Vedanta Limited

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



QUANTUM MUTUAL FUND

FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.; 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

DIN: 00109211

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund)

Managing Director and Chief Executive Officer Place: Mumbai Date: April 10, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments. NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES

ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024 Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees , shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the

For Application" on page 119 of the Letter of Offer. This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such

applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 For, Sawaca Business Machines Limited Place: Ahmedabad Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing olio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-

UNIVERSAL CABLES LTD

REGD OFFICE: P.O. BIRLA VIKAS, SATNA, MADHYA PRADESH + 485005

11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof has been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against lealing in anyway with these shares. Name and address of Applicants:

Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor, 101, Richmond Road, Banga Date: 11.04.2024

RailTel (A Govt. of India undertaking) RABITE. (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190, 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580, Dt. 10.04.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

work of "Deployment of maintenance team for

maintenance of optic fibre cable network and unkner

of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL

ER for a period of 2 years and extendable by one year

on same terms and conditions" Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https:// eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Comgendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

Reserve Price | Earnest Money | Incremental

SALE NOTICE

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04:00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST) Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST)

Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

Details of

No		assets	(Rs)	Deposit (Rs)	value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Pfant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

Sr. Block

1. E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS. WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). . It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does

Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party. potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms

and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction

not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net 5.The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their

service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net.

independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. KULDEEP VERMA

Date: 11.04.2024 Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com** Investors can request for a physical copy or electronic copy of

the half yearly portfolio through any of the following modes: 1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100

168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in 3) Written Request (letter) to :

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Unitholders are requested to update their latest e-mail id and mobile number to help us serve better.

For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

Chennai - 600 034.

(Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Date : April 10, 2024 **Authorised Signatory** Place: Mumbai Mutual Fund investments are subject to market risks, read

all scheme related documents carefully.

(Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. Corporate Office: 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

Place: Gurugram

Date: April 10, 2024

financialexp.epapr.in

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystal-group.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

			STANDALONE						CONSOLIDATED				
Sr. No.		Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Quarter Ended		d	Nine Months Ended		Year Ended
NO.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
	0	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847.42	7,110.50	4,995.64	6,855.05	2,830.74	2,345.23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
2	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)			1.5		46.42	46.42	54		5		46.42	46.42
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334.04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96.41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
6	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
7	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year		10-1004				1,546.52		73.75			100	1,576.50
8	Earnings Per Share (EPS)												
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33
	Diluted (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

Haq, ek behtar zindagi ka.

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com

www.utimf.com

3 Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

NOTICE

Hosting of the half-yearly statement of

schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI

Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated,

May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half

year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its

a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format

Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free).

d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund)

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund

distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ARTEMIS

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075

Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001

Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services

Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-

Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8

2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry

of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023

and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited

Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held it

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA

i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by

The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the

instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during

Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the

business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024

may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL

The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on

 The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice

of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login

ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the

. the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once

the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not

a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner

DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohl

(holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallav

Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel

Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary a

as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting

the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;

The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);

the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;

The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);

existing user ld and password can be used for casting vote;

(www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com

Toll Free No.: 1800 266 1230

Place : Mumbai Date: April 10, 2024

on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'

of UFCs available at www.utimf.com.

E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

Information Memorandum cum Application Form.

Participants ("DP") as on April 5, 2024.

sending an e-mail at rta@alankit.com.

Members may note that:

fair and transparent manner.

investor@artemishospitals.com.

Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

the cut-off date. All the members are informed that:

be entitled to cast their vote again;

the EGM and join the EGM through VC/OAVM.

Landline-022-62278000

Mumbai

April 10, 2024

schemes portfolio through any of the following means

HYP <Folio > Example HYP '123456789' to 5607090.

MUTUALFUNDS

vedanta

VEDANTA LIMITED CIN: L13209MH1965PLC291394

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director

DIN: 02042603

For & on behalf of the Board of Directors

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Numbers	Certificate No.	
No.	Training of Charletteract (c)		0.1	From	То		
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986	
'	Dharav Rajendra Mehta	002117400	100	000707772	000707071	027000	
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599	
_	Dharav Rajendra Mehta	00L117404	100	004137330	004100000	029399	
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556	
J	Vinod Kumar Jain	10003122	20	786498151	786498160	020330	
	Jayshri Janak Jesrani						
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339	232	865440796	865441027	831594	
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani						
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	829934	
5	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200	004293432	004293031	023334	
_	1.						

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

For Vedanta Limited Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited

18 Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

DIN: 00109211

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund) Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926 Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened or Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

Company Secretary & Compliance Office

For Artemis Medicare Services Limited

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the

holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio	Certificate	No. of	Distin	ctive No.	Name of the Shareholder
No.	No.	No.	Shares	From	То	Hamo or the chareners.
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

> NOTICE UNIVERSAL CABLES LTD

SATNA, MADHYA PRADESH - 485005

Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 0001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan, Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of dudients share and fishers in several thereof here

of duplicate share certificates in respect thereof has

been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share

certificates should lodge such claim with the Company at its registered office at the address

given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against

Name and address of Applicants

Siddharth and Veena Raghavan Nirvana Apartments, Unit A-3, 2" floor,

101, Richmond Road, Bangalore 56002

Mudumbi Padmanabhan

ealing in anyway with these shares.

For UNITED BREWERIES LIMITED AMIT KHERA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190 4850376, 4850510, 4850542 & 4850580

Dt. 10.04.2024

RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the

work of "Deployment of maintenance team f

naintenance of optic fibre cable network and upkee f associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one ye on same terms and conditions' Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document available on https://www.railtel.in, https:/ procure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only.

SALE NOTICE MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3" Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST)

E-Auction

Last Date of EMD Submission: 7" May2024 (Upto 5PM IST)

Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

Sr. No	Block	Details of assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (Rs)	Incremental value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

Important Notes

 E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS. WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger). It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does

not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the

Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party, potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction

service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net. I. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their

independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. Place: Kolkata

Date: 11.04.2024

Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024

KULDEEP VERMA

NOTICE NO. 6/2024 Notice is hereby given that in accordance with Regulation

59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes:

1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100 168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in

3) Written Request (letter) to :

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or

b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034.

Unitholders are requested to update their latest e-mail id and mobile number to help us serve better.

For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund) Sd/-Date : April 10, 2024

Authorised Signatory Place : Mumbai Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. **Corporate Office :** 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in.

Corporate Identification Number (CIN): U67190MH2021PTC360838 HYDERABAD

April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024. Date: 10th April, 2024 Place : Ahmedabad

Date: April 10, 2024 Place: Gulligram xp. epapr. in

Poonam Makkar

KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Registered Office: Krystal House, 15A/17, Shivaji Fort CHS, Duncan Causeway Road, Mumbai -400 022 CIN: U74920MH2000PLC129827, Tel. No.: - 9122 4353 1234, +9122 2403 0220/21 Website: www.krystal-group.com.

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

	(45) (A)			STAND	ALONE					CONSC	LIDATED		
Sr. No.	Particulars	Q	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	C	uarter Ende	d	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
reu.		31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
_		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total income from operations (net)	2,730.26	2,277.08	1,847,42	7,110.50	4,995.64	6,855.06	2,830.74	2,345,23	1,911.61	7,346.82	5,153.92	7,076.36
200	Net Profit (+) / Loss (-) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	151.79	146.96	116.81	410.05	312.99	386.03	157.70	146.73	117.81	413.14	316.53	390.47
85	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)		invasio			46.42	46.42	84	10/220	3 8		46.42	46.42
	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	124.44	118.02	94.51	334,04	290.61	382.06	127.27	118.47	94.39	332.83	291.69	384.13
0.00	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit (+) / Loss (-) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	124.69	116.47	96,41	331.19	293.76	384.56	128.39	117.22	95.28	331.15	293.97	387.68
88	Paid-up equity share capital (Face Value per share Rs.10/-)	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24	115.24
50	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous accounting year	111/480-041	VSCATION SHIP		10747005000	CONTRACT.	1,546.52	39407025	0/2/07/2	22751 59034	. vanoedes.	91509A01	1,576.50
63	Earnings Per Share (EPS)				10,00000		2011-2010					V-00115-11	00(888600)
	Basic (not annualised)	10.80	10.24	8.20	28.99	25.22	33.15	11.04	10.28	8.19	28.88	25.31	33.33

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

Diluted (not annualised)

1 The above results have been reviewed by Audit Committee on 10th April, 2024 and approved by Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th April, 2024.

28.99

8.20

2 The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.krystal-group.com.

33.15

11.04

10.28

8.19

28.88

Previous period's/year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

10.24

For & on behalf of the Board of Directors

25.31

(Sanjay Suryakant Dighe) CEO & Whole-time Director DIN: 02042603

33.33

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001 Phone: +91-80-45655000, 22272807 Fax: +91-80-22211964 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE

The following share certificates of the Company have been reported lost/misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of Duplicate Share Certificates.

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the below mentioned persons unless a valid objection is received by the Company within 7 days from the date of publication of this notice.

SI.	Folio		No. of	Distinctive No.		Name of the Shareholder
No.	No.		Shares	From	То	Traine of the onarcholder
1	UB003935	108698	2400	3593021	3595420	SANJIV KAPUR JYOTI KAPUR

Any person(s) having objections to the issue of the duplicate share certificates should lodge his/her/their objection with all supporting documents with the Company at its Registered Office within 7 days from the appearance of this notice failing which the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) to the persons mentioned above and thereafter no objection to the issue of duplicate share Certificates will be entertained from any person(s).

> For UNITED BREWERIES LIMITED AMIT KHERA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

MUTUALFUNDS



Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

10.80

Hosting of the half-yearly statement of schemes portfolio of UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all Unit holder(s) of UTI Mutual Fund "Schemes" that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.1 pertaining to Portfolio Disclosures of SEBI Master Circular for Mutual Funds no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated. May 19, 2023, the half-yearly statement of schemes portfolio of all Schemes for the Half year ended March 31, 2024 have been hosted on our website viz. www.utimf.com, and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investor can also request for physical or electronic copy of the half-yearly statement of its schemes portfolio through any of the following means

- a. SMS: Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format HYP <Folio> Example HYP '123456789' to 5607090.
- b. Telephone: Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free) Landline-022-62278000
- c. Email: Send an email to 'service@uti.co.in'
- d. Letter: Submit a request letter at any of our UFCs/OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com. Mumbai

April 10, 2024 Toll Free No.: 1800 266 1230 www.utimf.com REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



HOSPITALS

OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001 Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com, Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Artemis Medicare Services

Limited ("Company") will be held on Friday, May 3, 2024 at 2:30 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the special businesses as set out in the Notice of EGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, without the physical presence of the members at a common venue

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on April 10, 2024 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on April 5, 2024

The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.artemishospitals.com/investors and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in

demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited either at their office at 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi 110055 or by sending an e-mail at rta@alankit.com. Instructions for remote e-Voting and e-Voting during EGM:

- The facility of casting the votes by the members ("e-Voting") will be provided by NSDL. The Notice of the EGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-Voting or e-Voting during the EGM and join the EGM through VC/OAVM.
- Shareholders who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the EGM through remote e-Voting or e-Voting during the EGM in the manner provided
- The members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, April 26, 2024 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of NSDL The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the members are informed that:
- 1. The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-Voting shall commence on Tuesday, April 30, 2024 at 9:00 A.M. (IST);
- 3. The remote e-Voting shall end on Thursday, May 2, 2024 at 5:00 P.M. (IST);
- 4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is Friday, April 26, 2024 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
- 5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. April 26, 2024, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user ld and password can be used for casting vote;
- 6. Members may note that:

Date: April 10, 2024

Place: Gurugram

- . the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- . the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again:
- the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM: · a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories
- as on the cut-off date i.e. April 26, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kukreja (holding Certificate of Practice No. 8265), Partner,
- DMK Associates, Practicing Company Secretaries ("DMK"), as the Scrutinizer and in case of failing him, Ms. Monika Kohli (holding Certificate of Practice No. 4936), Partner, DMK, as an alternate scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the EGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in Members may also write to the Company Secretary at
- investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited Sd/-

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer



VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1st Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai-400093 Phone No. +91-22 6643 4500 Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; email id: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates of face value Re. 1/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST/MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder(s)	Folio No.	Shares	Distinctive	Certificate No.		
No.		Tollo No.	Onares	From	То	Certificate No.	
1	Ritaben Rajendrabhai Mehta	SGL117483	100	863707772	863707871	827986	
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117403			003707071	021900	
2	Rita Ramanlal Naik	SGL117484	100	864157936	864158035	829599	
	Dharav Rajendra Mehta	3GL117404					
3	Madhu Jain	M009122	20	392877951	392877960	820556	
J	Vinod Kumar Jain	10009122		786498151	786498160		
	Jayshri Janak Jesrani	li .	232	865440796	865441027	831594	
4	Mr. Janak Doongarsey Jesrani	SGL106339					
	Mr. Doongarsey Ranchhoddas Jesrani	8					
5	Mr. Aroonbhai Shah	SGL110019	200	864295452	864295651	820034	
Э	Mrs. Shardaben A Shah	3GL110019	200		004295051	829934	

Place: New Delhi Date: April 11, 2024

For Vedanta Limited Prerna Halwasiya **Company Secretary & Compliance Officer**

Place: Bengaluru

Date: 10.04.2024



QUANTUM MUTUAL FUND

FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 1º Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020 Toll Free No.: 1800-209-3863 / 1800-22-3863 Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO. 1 / 2024

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors / Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular dated May 19, 2023, that Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Company www.QuantumAMC.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI).

Investors / Unit holders can submit a request to receive a physical or electronic copy of the Half yearly Statement of the Schemes Portfolio of the Fund at free of cost either through Short Messaging Service (SMS) - <QMF HYP> to 9243223863 / Telephone - 1800-22-3863 / 1800-209-3863 / Email - Customercare@QuantumAMC.com / Written Request through a physical Letter addressing to Quantum Asset Management Company Private Limited, 1st Floor, Apeejay House, 3 Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020.

> For Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: April 10, 2024

Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer

| E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024



Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place : Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

NOTICE UNIVERSAL CABLES LTD REGD OFFICE P.O. BIRLA VIKAS SATNA, MADHYA PRADESH + 485005 Notice is hereby given that Share Certificate Nos. Notice is hereby given that Share Certificate Nos. 208283-208339 for 2685 Ordinary Shares bearing Folio No 9001857 and distinctive Nos. 11088831-11091515 of the Company standing registered in the names of Mudumbi Padmanabhan. Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan have been lost and that the application for the issue of duplicate share certificates in respect thereof has

been made to the Company. Any person who has/have any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the impany at its registered office at the address given above within one month from the date of this announcement. The Public are cautioned against Name and address of Applicants: Mudumbi Padmanabhan Siddharth and Veena Raghavan

Kolkata Bench vide order dated 06.04.2022

Details of

Date: 11.04.2024

RailTel (A Govt. of India undertaking) (CIN: U64202DL2000G0I107905) GEM/2024/B/4847002, 4847084, 4847143, 4847190,

4850376, 4850510, 4850542 & 4850580, Dt. 10,04,2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of "Deployment of maintenance team for maintenance of optic fibre cable network and upkeep of associated gears in 08 (eight) Sections of RCIL ER for a period of 2 years and extendable by one year on same terms and conditions". Detailed GeM Bid Notice / GeM Bid Document is available on https://www.railtel.in, https://

Reserve Price Earnest Money Incremental

eprocure.gov.in and https://gem.gov.in. All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on RailTel website, CPP Portal and GeM Portal. Bidders have to submit their bids on GeM Portal only. 101, Richmond Road, Bangalore 560025

SALE NOTICE

MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) (A Company under Liquidation vide Hon'ble NCLT order dated 06th April 2022) Registered Office: 6 G.C Avenue, 3th Floor, Kolkata-700013, West Bengal CIN: U64203WB2002PTC094700

E-Auction Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-auction: 10" May 2024 from 12:00 noon till 04.00 PM (IST) (With unlimited extension of 5 minutes each) Last Date of Submission of Expression of Interest: 25th April 2024 (Upto12:59PM IST)

Last Date of EMD Submission: 7th May2024 (Upto 5PM IST) Sale of Assets and Properties owned by Mantha Broadband Services Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") forming part of the Liquidation estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal.

No	24976700	assets	(Rs)	Deposit (Rs)	value (Rs)
1		Land along with assets at Mouza-Tajpur, PS-Ramnagar, East Medinipore, West Bengal having aggregate area of 13.095 Acre as per sale deeds.		1,90,00,000	20,00,000
2	Block B	Plant & Machinery, Office Equipments, Furniture & Fixtures and Vehicles of the Corporate Debtor	1,18,58,850	11,85,0000	1,00,000

Sr. Block

 E- Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS. WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS" through approved service provider M/S E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger).

- 2. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party, potential investor / bidder without assigning any reason and without any liability.
- All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the E-Auction Process Document prior to submission of EMD and participation in the process The Complete E-Auction process document containing details of the Assets online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website of the e-auction service provider at https://ncltauction.auctiontiger.net.

. The bidding shall take place through online e-auction service provider E-Auction

service provider M/s e-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) at https://ncltauction.auctiontiger.net The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the

Place: Kolkata Date: 11.04.2024

property at their own expenses and satisfy themselves. KULDEEP VERMA Liquidator of Manthan Broadband Services Private Limited

Regn. no. IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 46, BB Ganguly Street, 5th Floor Unit No 501 Kolkata 700012 E: kuverma@gmail.com/liquidation.manthan@gmail.com Authorisation for Assignment (AFA) - Valid till 14.12.2024



NOTICE NO. 6/2024

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes:

1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100 168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in 3) Written Request (letter) to:

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Unitholders are requested to update their latest e-mail id and mobile number to help us serve better.

For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Sd/-**Authorised Signatory**

Chennai - 600 034.

Date : April 10, 2024 Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited).

Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra. Corporate Office: 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla

Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra.

Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in. **Corporate Identification Number (CIN):** U67190MH2021PTC360838

financialexp.epapr.in

Pune

सपा के घोषणा पत्र में जातीय जनगणना समेत कई वादे

अखिलेश ने 20 पन्नों का 'जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार' किया जारी

लखनऊ, १० अप्रैल (भाषा)।

सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने. महिलाओं के लिए आरक्षण, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और किसानों को न्यनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी नेताओं ने पार्टी के मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र 'जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार' जारी किया। इंडिया के प्रमुख घटक दल सपा के 20 पन्नों के इस घोषणा पत्र में इस बार पीडीए (पिछडा, दलित और अल्पसंख्यक) सरकार का आह्वान किया गया है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने इस विजन डाक्यमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों और गठबंधन का समर्थन करेगी तथा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीतेगा।

घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने और इसके

दहेज हत्या के मामले में

चिकित्सक गिरफ्तार

थाना इज्जतनगर की पुलिस ने

दहेज हत्या के मामले में एक

चिकित्सक को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक जयशंकर

सिंह ने बताया कि हत्या में शामिल

रहे उसके कम्पाउंडर की तलाश की

जा रही है। आरोपी ने अपना जुर्म

कबूल कर लिया है, उसे जेल भेजा

गया है। पुलिस से मिली जानकारी

के मुताबिक नैनीताल रोड की

रामेश्वरम कालोनी में रहने वाले

एक चिकित्सक अखिलेश कुमार के

खिलाफ छह अप्रैल को दहेज की

खातिर पत्नी की हत्या करने का

मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने आरोपी को उसके घर से

उस समय गिरफ्तार किया जब वह

शहर छोडकर भागने की फिराक में

था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म

कबूल करते हुए बताया कि हत्या में

उसका कम्पाउंडर विजेंद्र भी शामिल

था। वे हत्या करने के बाद मृतका के

शव को जिला अस्पताल में छोडकर

चले आए थे। न्होंने उस समय

मृतका के घर के अंदर गिरने से

मौत होने की बात कही थी, लेकिन

असलियत में डंबल और इमामदस्ता

मृतका के सिर में मारकर उसकी

हत्या की थी। पुलिस ने घटना में

इस्तेमाल किया गया डंबल बरामद

कर लिया है।

LOST & FOUND

have Lost Deed Papers for Unit No.

B. 5th Floor, Block-South, Club

Town Enclave Housing Complex

being Deed of Conveyance recorded

in Book No. I, CD Volume No. 5.

Pages from 19624 to 19698 being

No. 05619 for the year 2008 regis-

tered before the ADSR, Bidhannagar

and Deed of Gift duly registered

before the AA, Office of the ARA-IV,

Kolkata recorded in Book No. I.

Volume Nos. 1904-2015, Pages from

66162 to 66168 being No.

If found, please return to Sujata

1-190401873 for the year 2015.

बरेली, 10 अप्रैल (जनसत्ता)।

भाजपा सिर्फ झूटे आश्वासन देती है : शिवपाल सिंह यादव

बदायूं, 10 अप्रैल (भाषा)। सपा नेता और शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कुछ अधिकारी भाजपा नेताओं के साथ मिलकर लोगों को धमका रहे हैं। इसकी शिकायत डीएम से की है। अगर डीएम कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे। यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ झूटे आश्वासन देती है, झूटे वादे करती है, यह झूट की पार्टी है।

आधार पर 2029 तक सभी के लिए न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, 2025 तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने, परानी पेंशन योजना को बहाल करने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित खात्मा करने का वादा किया गया है।

कर सशस्त्र बलों में स्थाई भर्ती एक बार फिर शुरू करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, किसानों के कृषि संबंधी कर्ज माफ करने, मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने, किसान आयोग का गठन करने और सभी भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों को पांच हजार प्रतिमाह देने तथा मनरेगा की तर्ज पर

शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करने के वादे किए गए हैं। महिला अपराधों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाने और देशव्यापी हेल्पलाइन बनाने, दो साल के अंदर संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरियों करने और 2029 तक गरीबी का पूरी तरह से में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने के वादे भी किए गए हैं। मुफ्त राशन में गेहं की घोषणा पत्र में अग्नि वीर योजना को खत्म जगह आटा देने और हर राशन कार्डधारक परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त देने का वादा है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने, शिक्षा का बजट जीडीपी के तीन से बढ़ाकर छह फीसद करने, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देने और डिजिटल फासले को खत्म

करने का भी वादा किया गया है।

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

NOTICE

🚱 kotak

NOTICE is hereby given that Pursuant to Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Para 5.1 of SEBI Master circular no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half-yearly statement of scheme portfolio for the half year ended March 31, 2024, is hosted on the website of the Kotak Mahindra Mutual Fund viz. www.kotakmf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

The unitholders can also submit a request for a physical or electronic copy of the half-yearly statement of scheme portfolio by sending an SMS through registered mobile number on 9167573281 or by calling on 18003091490 / 044-40229101 or by sending an email to mutual@kotak.com or by writing a letter to Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd, at the address mentioned below.

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited Investment Manager - Kotak Mahindra Mutual Fund

Mumbai April 10, 2024 Authorised Signatory

Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited CIN: U65991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund) 6th Floor, Kotak Towers, Building No. 21, Infinity Park, Off: Western Express Highway, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (East), Mumbai 400097. Phone Number: 18003091490 / 044-40229101 • Email: mutual@kotak.com • Website: www.kotakmf.com Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully

Agarwal (M)9331902884 Continued from previous page

Liability of Members of the Company: Limited by shares. AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 21,00,00,000 divided into 2,10,00,000 Equity Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹15,00,00,000 divided into 1,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company:

S. No.	Names of Person	Number of Shares Allotted
1.	Mr. Ashok Mehta	75,00,000
2.	Mrs. Neetu Mehta	74,99,500
3.	Mr. Azeez Mehta	100
4.	Ms. Navya Mehta	100
5.	Mr. Narinder Krishan Miglani	100
6.	Mr. Gaurav Miglani	100
7.	Mr. Saurav Miglani	100
	Total	1.50.00.000

For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our Company has received an in-principle approval from the BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated March 01, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be SME Platform of BSE Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on April 08, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 289 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 213 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to page 215 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of BSE Limited.

GENERAL RISK: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 22 of the Red Herring Prospectus.

पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव

हाथरस, 10 अप्रैल (जनसत्ता)। खेतों में मजदूरी करके घर लौटे परिजनों को अपने ही घर का दरवाज़ा तोड़ का प्रवेश करना पड़ा। भीतर घुसे तो देखा विवाहिता का शव पंखे से लटका है।

NOTICE NO. 6/2024:

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59(A) of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Paragraph 5.1 of SEBI Master Circular for Mutual Funds SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2023/74 dated May 19, 2023, the half yearly portfolio of the Schemes of Helios Mutual Fund ('the Fund') as on March 31, 2024 has been hosted on the website of the Fund viz. https:// www.heliosmf.in/downloads/ and on the website of AMFI viz.**www.amfiindia.com**

Investors can request for a physical copy or electronic copy of the half yearly portfolio through any of the following modes:

1) Telephone: Call at our Investor Contact Centre at 1800 2100 168 (toll free number)

2) Email: Send an email to customercare@helioscapital.in 3) Written Request (letter) to:

a) Registered office or any of the Investor Service Centres of Helios Capital Asset Management (India) Private Limited; or b) Computer Age Management Services Ltd (CAMS) at New No.10, (Old No. 178), M.G.R. Salai, Nungambakkam,

Chennai - 600 034. Unitholders are requested to update their latest e-mail id and

mobile number to help us serve better. For Helios Capital Asset Management (India) Private Limited

(Investment Manager to Helios Mutual Fund)

Sd/-**Authorised Signatory**

Place: Mumbai Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Date : April 10, 2024

Helios Capital Asset Management (India) Private Limited (Formerly Helios Capital Management (India) Private Limited). Registered Office: 515 A, 5th Floor, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra.

Corporate Office : 502, B Wing, The Capital, Plot C70, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra. Contact: 022-67319600, Website: www.heliosmf.in.

Corporate Identification Number (CIN): U67190MH2021PTC360838

ASHAPURI GOLD ORNAMENT LIMITED (CIN:-L36910GJ2008PLC054222)

Registered Office:-109 to 112A, 1st Floor Super Mall, Nr. Lal Bunglow, C.G.Road, Ahmedabad-380009, GJ, IN. Contact No.:+91-79 2646 2170 Website: www.ashapurigold.com E-Mail: ashapurigold@gmail.com

NOTICE OF RECORD DATE FOR RIGHT ISSUE

NOTICE is hereby given pursuant Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations an

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has fixed Thursday, April 18th, 2024 as Record Date for the purpose of taking record of the

Eligible Shareholders of the Company entitled to apply for the Rights Equity

The above information is also available on the website of the Company www.ashapurigold.com and also available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. www.bseindia.com.

By Order of the Board of Director For, Ashapuri Gold Ornament Ltd.

Place: Ahmedabad Date: - 10th April, 2024

Saremal Soni Managing Director (DIN: 02288750)

HINDUSTHAN BUILDING SOCIETY LIMITED

Registered Office: 4, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55; Fax No.: (033) 2212 9696 Email: arvindroc33@gmail.com; Website: www.hindusthanbuildingsociety.com;

CIN: L45201WB1946PLC013530:

NOTICE

Notice is hereby given to all the public shareholders of Hindusthan Building Society Limited ("Company") that the Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited, i.e. the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, and also provide an exit opportunity to the public shareholders of the Company. Therefore, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company / ABS Consultant Private imited ("Registrar" of the Company) at the earliest to enable the Company and the Registrar to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer. Hence, the public shareholders must update their details in the records of the

Company to actively participate in the Delisting Offer. We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 lated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physica form are also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise public shareholders holding their equity shares in physical mode will not be able to transfer them unless they get their equity shares dematerialized.

Shareholders are also requested to kindly refer to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries: Hindusthan Building Society Limited ABS Consultant Private Limited (Mr. Uttam Sharma)

Company Secretary & Compliance Officer Tel No.: (033) 2212 6753/54/55

Tel No.: 9339384226: Email id: absconsultant99@gmail.com;

Raj Bansal

DIN: 00545292

Email Id: arvindroc33@gmail.com; For Hindusthan Building Society Limited

Place: Kolkata

Date: 11.04.2024

Bank of India 💢

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड (पूर्व में बीओआई अक्सा म्यूचुअल फंड)

(निवेश प्रबंधक: बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) (पर्व में बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय: बी/204, टॉवर 1, पेनिनसुला कॉपोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013, सीआयएन: U65900MH2007FTC173079

Mutual Fund

सूचना क्र. 01/2024-25

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचअल फंड की योजनाओं के अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण के संबंध में प्रकटीकरण :

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड (फंड) की सभी योजनाओं के निवेशकों/यूनिट धारकों को सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियमन 59ए जो 19 मई, 2023 के सेबी मुख्य परिपन्न सं. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 के अनुच्छेद 5.1.3 के साथ पठित है, के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त छमाही के लिए फंड की योजनाओं का अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण, फंड की वेबसाइट www.boimf.in पर एवं एम्फी की वेबसाइट www.amfiindia.com पर प्रकाशित किया गया है।

निवेशक हमारे सेवा केंद्र को 1800-103-2263/1800-266-2676 पर कॉल करके या service@boimf.in पर एक ई-मेल भेजकर या अग्रांकित पते पर पत्र लिखकर अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण की भौतिक प्रति या सॉफ्ट कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं - प्रमुख - ग्राहक सेवा, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी/204, टॉयर 1, पेनिनसूला कॉर्पोरेट पार्क, गणपतराय कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013.

बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए (पूर्व में बीओआई स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) (बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए निवेश प्रबंधक) (पूर्व में बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान: मुंबई

दिनांक: 10 अप्रैल, 2024

म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन हैं, योजना संबंधी सभी दस्तावेज़ों को सावधानी से पढ़ें.

Samco Asset Management Private Limited A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013.

Tel: +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200 CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757,

Website: www.samcomf.com

SSAMCO MUTUAL FUND

Hosting of Half-yearly Portfolio Statement of the Schemes of Samco Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of the schemes of Samco Mutual Fund ("SMF") that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Clause 5.1 of the SEBI Master Circular dated May 19, 2023, the Half Yearly Portfolio Statements of the schemes of SMF for the period ended March 31, 2024, has been hosted on the Fund's website viz., www.samcomf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com. Investors may accordingly view/download the statements from the website of the Fund.

NOTICE No. 17/2024

Investors can also request for physical or electronic copy of the Half Yearly Portfolio statements of schemes portfolio, by writing to us at mfassist@samcomf.com or calling on our toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the official points of acceptance of SMF.

> For Samco Asset Management Private Limited (Investment Manager for Samco Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : April 10, 2024

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917

Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India.

Telephone Number: 079 4918 5784 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Address: C 101, 247 Park, L.B.S. Marg. Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India Tel. No.: +91-8108114949 Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Ms. Parul Gupta Address: Plot No. 287, Industrial Area, Phase II Industrial Estate Panchkula- 134113. Haryana, India

Tel No: +91-9876009999; Email: info@emmforce.com Website: www.emmforce.com

EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

Investors can contact the Company Secretary and

Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com. the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Emmforce Autotech Limited, Telephone: +91-9876009999; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI. ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus. On behalf of Board of Directors

For, EMMFORCE AUTOTECH LIMITED Ashok Mehta

Place: Panchkula, Haryana

Date: April 10, 2024 Managing Director Disclaimer: Emmforce Autotech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Delhi on April 08, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

www.readwhere.com

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी के पंजीकत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्वापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निवेशक)

तत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के राप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

ई सी ई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीई हाउस, 28-ए, करतुरवा गांधी मार्ग, गई दिल्ली-110001

तदहारा सार्वजनिक सूबना दी जाती है कि वह कंपनी केंद्र तरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निर्देशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 08.04.2024 को आयोजित लाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पुष्टि करने की

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति वा तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, एक इसफनामें द्वारा समर्थित आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, दसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली 110003 पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और एक प्रति याधिकाकर्ता कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजें। ईसीई डान्डस, 28-ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

के लिए और उनकी ओर ईसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रकाश कमार मोहता) दिनांक : 11.04.2024 प्रबंध निदेशक रथान : नई दिल्ली डीआईएनः 00191299 IN THE COURT OF SH. AJAY GARG, ADJ-01. EAST, DISTRICT ROOM NO.9, 1ST FLOOR, KARKARDOOMA, COURTS DELHI

(P1) Vaibhav Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana-122017 (P2) Vedant Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana-122017

VERSUS

(R1) THE STATE, Through, The Chief Secretary, Players Buildings, Delhi Secretariat, GNCT of Delhi, Indraprastha, ITO, New Delhi-110002 (R2) Sh. Devansh S/o Sh. Mrinal R/o N-32, Laxmi Nagar, Delhi-92 (R3) Smt. Asha Kalia W/o Sh. Vivek Kalia, R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana (R4) Sh. Uttam Parkash Sharma S/o Late Sh. Om Parkash Sharma R/o 3, Grovedale Court, Clayton Coctoria 3168, Australia (R5) Smt. Chhaya Sharma D/o Late Sh. Uttam Parkash Sharma R/o N-32, N-Block, Near Jagat Ram Park, Laxmi Nagar, Delhi Respondents

PETITION UNDER SECTION 278 OF INDIAN SUCCESSION ACT 1925 FOR GRANT OF LETTER OF ADMINISTRATION IN RESPECT OF THE ESTATE OF DECEASED SMT. SHANTI SHARMA W/O LATE SH. OM PARKASH SHARMA.

Notice is hereby given to the general public that any person having objection for Grant of Letter of Administration of Immovable Property of the deceased Smt. Shanti Sharma W/o Shri Om Parkash R/o H.No.30-A, J & K Block, Laxmi Nagar, Delhi-110092 in respect of Entire Built up property bearing no. N-32, Land Area Measuring 100 Sq. Yds., Alongwith Its Whole of Structure According to the Site Therein, With Roof Rights, With The rights to further/upper Storey, Construction upto The Last Storey, Fitted with Electricity and Water Tap Connections in Running Condition, Out of Khasra No. 57/25, Situated in the Abadi Of Laxmi Nagar, In the Area of Village Khureji Khas, illaga Shahdara, Delhi-110092. Whereas the 22/05/2024 at 10'O clock in the forenoon has been fixed for hearing of the case, notice is hereby given that person having any interest in the administration of the concerned may if he/she desire appear in this Court of the said 22/05/2024 and see the proceedings, der my hand the seal of this court on this 20/02/2024.

EAST, KKD, **COURTS DELHI**

HINDUSTHAN BUILDING SOCIETY LIMITED

CIN: L45201WB1946PLC013530; Registered Office: 4, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55; Fax No.: (033) 2212 9696 Email: arvindroc33@gmail.com; Website: www.hindusthanbuildingsociety.com;

NOTICE

Notice is hereby given to all the public shareholders of Hindusthan Building Society Limited ("Company") that the Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited, i.e. the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, and also provide an exit opportunity to the public shareholders of the Company. Therefore, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company / ABS Consultant Private Limited ("Registrar" of the Company) at the earliest to enable the Company and the Registrar to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer. Hence, the public shareholders must update their details in the records of the Company to actively participate in the Delisting Offer.

We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physical form are also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise, public shareholders holding their equity shares in physical mode will not be able to transfer them unless they get their equity shares dematerialized.

Shareholders are also requested to kindly refer to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries: Hindusthan Building Society Limited ABS Consultant Private Limited

Pooja Kumari (Company Secretary & Compliance Officer) Tel No.: (033) 2212 6753/54/55 Email ld: arvindroc33@gmail.com:

(Mr. Uttam Sharma) Tel No.: 9339384226; Email id: absconsultant99@gmail.com;

For Hindusthan Building Society Limited Raj Bansal Director

Place: Kolkata Date: 11.04.2024

DIN: 00545292

कब्जा सूचना

तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकत अधिकारी के रूप में सरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामो के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भूगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शूल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चकाने का आदेश टिया था।

4) (व्याग सहित युगान का आदरा दिया था।							
क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक / बकाया देय (रुपये में)	दिनांक / समय एवं कब्जे का प्रकार				
10	45128640001538 45129660002171 45129660002540 और 4512020000412011	1) मैसर्स. राघव पेट्रोकेम प्रा. लिमिटेड, इसके मालिक श्री राकेश कुमार छाबड़ा द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री राकेश कुमार छाबड़ा (उधारकर्ता), 3) श्री राघव छाबड़ा (गारेंटर) 4) श्रीमती कांता छाबड़ा (गारंटर)	01.02:2024 रु. 3,38,15,276 / — (तीन करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ छिहत्तर रूपये मात्र) 30.01.2024 तक	तारीख: 08—04—2024 समय: 02:01 दोपहर सांकेतिक कब्जा				
	_ ·	, ,		1.0				

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः ग्राम शाहबाद, दौलतपुर, दिल्ली के विस्तारित लाल डोरा में स्थित खसरा संख्या 421 में से 360 वर्ग गज भूमि की अर्ध निर्मित संपत्ति जो श्री राकेश कुमार छाबडा पुत्र श्री चेतन दास छाबडा. के स्वामित्व में इसकी सीमा इस प्रकार है: पुर्व: प्लॉट नंबर 422,

	पश्चिमः प्लॉट नंबर ४२१ का शेष भाग, उत्तरः प्लॉट नंबर ४१७, दक्षिणः सड़क ८२ फीट चौड़ा।						
2	30218640000918	1) मैसर्स. ममता होम	06.02.2024	तारीखः			
		एप्लायंसेज, इसके मालिक श्री	रु. 25,11,731 ∕ −	10-04-2024			
		विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तुत,	(पच्चीस लाख ग्यारह	समयः			
		2) श्री विजय कुमार झाँ	हजार सात सौ	02:30 दोपहर			
		(उधारकर्ता),	इकतीस रूपये मात्र)				
		3)श्रीमती ममता झा (गारेंटर)	05.02.2024 तक	सांकेतिक			
				कब्जा			
	यर्गभेत संपत्ति का ति	नग्णः खयग नंतर ११०० गाम ग्रि	टानी गणाना लोनी तट	ਮੀਕ और ਚਿਕਾ			

गाजियाबाद, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज जो श्रीमती ममता झा, पत्नी श्री विजय कुमार झा. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः विक्रेता की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों का प्लॉट, उत्तरः रास्ता

जबिक, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने गं विफल रहे हैं. विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सूरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली एनसीआर हस्ता / –प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक:11.04..2024, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

Memorandum of Association of our Company:

Continued from previous page

S. No.

3.

4.

5.

6.

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ म्कूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर—5600: शाखा कार्यालय16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

Names of Person

Mr. Ashok Mehta

Mrs. Neetu Mehta

Mr. Azeez Mehta

Ms. Navya Mehta

Mr. Gaurav Miglani

Mr. Saurav Miglani

For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

Total

investors is invited to 'Risk Factors' on page 22 of the Red Herring Prospectus.

Mr. Narinder Krishan Miglani

नहीं हो पाए हैं, इसलिए उक्त नोटिस उधारकर्ता को सेवा के वैकल्पिक तरीके यानी समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस

की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। चूंकि कुछ नोटिस डाक टिप्पणियों के अनुसार सुपूर्द

ऋण खाता संख्याः USFBDELLOAN000005006195 ऋण राशिः रुं. 91,45,722/— एनपीए दिनांकः 04/03/2024 डिमांड मीटिस दिनांकः 27/03/2024 (28/03/2024 को भेजा गया) डिमांड नोटिस राशिः रुं. 92,98,638.83पी (27/03/2024 को) और ब्याज शुक्क।

करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो ,के लेनदेन या हस्तांतरण करने से रोका जाता है, इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त

हस्ता./ — प्राधिकृत अधिकारों, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिट

ग्लाबल कीपटल लिमिटेड APRI GLOBAL

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 सर्किल कार्यालय : 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में निम्नलिखित उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के राशि के पुनभुर्गतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज हेतृ सीजीसीएल के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम (ऋण खाता संख्या)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1.	हमारी फरीदाबाद शाखा के LNCG- COKDTL0000008316) बिनोद कुमार (कर्जदार) श्रीमती कविता तिवारी, प्रकाश तिवारी (सह-कर्जदार)	संपत्ति मकान नंबर 96 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, भूमि माप 2-1/2 मरला, खसरा नंबर 57/20, प्लॉट नंबर 9 और 10, गली नंबर 2, नंगला मार्ग, मौजा सारन,	27-01-2024 रु. 20,40,014/-	06-04-2024 (सांकेतिक)
		सुंदर कॉलोनी, सेक्टर - 22, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा - 121005 में निर्मित, सीमा इस प्रका द्वाराः अन्य की संपत्ति, उत्तर द्वाराः अन्य की संपत्ति, दक्षिण	ω \	की संपत्ति, पश्चि
2.	(ऋण खाता संख्या LNCGCJGDTL0000007767 हमारी आजादपुर शाखा के) राम कुमार शर्मा (कर्जदार) श्रीमती राज बाला, मैसर्स दीक्षा फैब्रिक्स	मकान नंबर 139 का समस्त भाग, खसरा नंबर 586 में से 150 वर्ग गज (125.415 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, ग्राम गढ़ी सबलू, तहसील- लोनी, जिला गाजियाबाद,	27-01-2024 表. 20,90,180/-	06-04-2024 (सांकेतिक)
	(इसके मालिक के माध्यम से), संजीव कुमार	उत्तर प्रदेश - 201102,		
	(सह-कर्जदार)			

IndusInd Bank 🕝

नई दिल्ली

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 21,00,00,000 divided into 2,10,00,000 Equity

Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹15,00,00,000 divided into 1,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each. For

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below

are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our Company has received an in-principle

approval from the BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated March 01, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be

SME Platform of BSE Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on April 08, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration

to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way

be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer

GENERAL RISK: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take

वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्निर्माण समूह, 1 1वीं मंजिल, हयात रीजसी कॉम्पलेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेंस, नई दिल्ली—1 10066

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(8) के परंतुक के साथ पठित के तहत इंडसइंड बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सुचना। एतव द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ताओं /गारंटरों को सुचित किया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के तहत जारी की गई मांग के अनुसरण में उल्लेखित निम्नलिखित संपत्ति(याँ) को निम्नलिखित ऋण खाते में भौतिक कब्जे में "'जो है जहां है", "'जो है जैसा है, वहां जो कुछ भी है और दायित्व रहित आधार" पर बिक्री के अधिकार के साथ प्राप्त कर लिया, बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए और बकाया चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि को वसूल करने का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लेखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टल : https://www.bankauctions.com के माध्यम से ई--नीलामी के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

खाता/ बंधककर्ताओं /गारंटरों का नाम	मांग सूचना अनुसार राशि और मांग सूचना दिनांक				
मैसर्स आनंद एजेंसीस, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, श्री नीरज आनंद	रू. 2,43,19,722.66 दिनांक 31.03.2022 को, संग 01.04.2022 से भविष का ब्याज प्लस उसपर लागत, प्रभारों और व्ययों आदि मांग सूचना दिनांक: 21.06.2022				
मैसर्स एम एस ट्रेडर्स, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, श्री नीरज आनंद	रु. 5,35,48,427.21 दिनांक 31.03.2022 को, संग 01.04.2022 से भविष का ब्याज प्लस उसपर लागत, प्रभारों और व्ययों आदि मांग सूचना दिनांक: 21.06.2022				
नीरज आनंद, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, मैसर्स आनंद एजेंसीस	रू. 1,17,75,509.67 दिनांक 31.03.2022 को, संग 01.04.2022 से भविष्य का ब्याज प्लस उसपर लागत, प्रभारों और व्ययों आदि मांग सूचना दिनांक: 21.06.2022				
नीरज सेल्स प्रा. लि., नीरज आनंद, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, मैसर्स आनंद एजेंसीस	रू. 2,28,20,487.16 दिनांक 31.03.2022 को, संग 01.04.2022 से १ का ब्याज प्लस उसपर लागत, प्रभारों और व्ययों आदि मांग सूचना दिनांक: 21.06.2022				
***************************************		आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी	बोली जमा	
संपत्तियों का विवरण		ईएमडी	की दिनांक	करने की	
		बोली वृद्धि राशि	और समय	अंतिम दिनांक	
मकान सं. 16/32, तीसरा तल, तिलक नगर, नई दिल्ली म	ापक सपर क्षेत्र	क. 70.50 शास्त्र	02.05.2024 को पूर्वाद्व	30.04.2024	
2 14 वर्ग गज का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग।	3	रू. 7.05 लाख	10.00 बजे से पूर्वाह	3FT, 4:00	
TORSON SERVICE OF PROMISED SERVICE		रु, 1,00 लाख	11.00 बजे तक	यजे तक	
संपूर्ण प्रथम तल, बिना छत् अधिकारों, संपत्ति सं. सी-2/311-	आई पर निर्मित,	क. 240.00 लाख	02.05.2024	20.01.0021	
मापेक क्षेत्र 279.03 वर्ग मीटर, और चालू हालात में पानी, बिजली औ कनेक्शन, संग सीदियां, रास्ता और लिफ्ट का साझा अधिकार, भूमि समानुपातिक अधिकार, संग स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में कार पार्किंग जगह, स्थित		रू. 24.00 लाख	को दोपहर 12.00	30.04.2024 3PF, 4:00	
कनवरान, संग सादिया, शस्ता आर लिफ्ट का साझा अधिकार	, मुल्म अलगत,	च. 1.00 लाख	वजे से अपग्रह वजे		

प्राधिकृत अधिकारी के संपर्क विवरण—यतेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर 9990799379, ई-मेल आईडी : kumar.yatendra@indusind.com

निषम और ऋतें: 1. इच्छक बोलीदाता अपने इंएमडी विवरण और दरलावेज वेच पोर्टलः https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (चुजर अर्डाडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुक्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नतिक्षित काते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से देव होगी: 00053564604005, IFSC Code- INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिक्षित तिथियों को च उससे पहले अपराह 4:00 बजे तक। कृपया ध्यान दें कि चेक को इंएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसामटी बकाया आदि जैसे संपत्ति साविधिक देव राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि वैक किसी भी बकाया वैधानिक देव राशि/ऋणभार/ कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छक बोलीदाताओं की ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पहलाछ करनी चाहिए और खंद का निरीक्षण और संतृष्ट होना चाहिए। सम्पत्ति का कहाई से निरीक्षण 15.02.2024 को दोपहर 12.00 वजे से अपराह 1.00 वजे के बीच किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन अर्डडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स रहे। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क फर सकते हैं- 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर- +91-7080804466. ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com और रांपित से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में जपर उल्लिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भुगतान में किसी भी चुक के मामले में, विक्री स्वचालित रूप से रद कर दी जाएगी और बोलीदाता डारा की गई पूरी जमा राशि और बयाना राशि विना किसी नेटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से येथ दिया जाएगा। चुककर्ता बोलीदाता के पास वैक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई रिकॉर्स/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियम और ज्ञतों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankeauctions.com देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को ई-नीलामी की दिनांक से पहले अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय के साथ ऊपर उल्लेखित राशि का भूगतान करने के लिए अधिसुचित किया जाता है, जिसमें चुक होने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

Number of Shares Allotted

75.00.000

74,99,500

100

100

100

100

100

1,50,00,000

प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 11.04.2024

UNITY Small

युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कॉर्पेरिट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताकूज (ई), मुंबई - 400 098

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्राधिक त अधिकारी के रूप में सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि भुगतान करने के लिए नीचे उल्लिखित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया है।

निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत 05/04/2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन उल्लिखित राशि के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क और उस पर ब्याज. के अधीन होगा। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान सरक्षित संपत्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर	गिरवी रखी गई संपत्तियों / संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख
	गिर्सा रखा गर्र समास्या/ समास्या का विवरण	No.
का नाम और ऋण खाता संख्या		और बकाया राशि
		जार प्रयापा सारा
1. भगत सिंह 2. रोशनी सी ऋण खाता संख्या:— 1. USFBDELLOAN000005007853 और 2. USFBDELLOAN000005007857	पलवल, हरियाणा— 121102	रु. 24,05,954.35 पैसे (रुपए चौबीस लाख
दिनांकः 11/04/2024 स्थानः पलवल, ह	रियाणा हस्ता / — प्राधिकृत	अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE

PERIOD EXTENDED

ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024 Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it

Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such pplications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

IndusInd Bank (1)

गारंटर का नाम

फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीकंस्ट्रक्शन ग्रूप 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यु टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज वे

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अधीन इंडसइंड बैंक को रेहन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री। एतदद्वारा आम जनता को तथ विशेष रूप से ऋणी/बंधक/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जार्र नोटिस के तहत जारी की गई मांग के अनुसार उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित अनुसार बैंक की बकाया राशि और ब्याज की वसुली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में जैसी है जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, वहां जो कुछ मौजूद है और बिना संसाधन के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ लिय है और जबकि चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक बकाया की वसुली का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री होगी वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी। खाते/बंधककर्ता और डिमांड नोटिस के अनुसार राशि व

30.11.2022 को 3,63,30,855.77/- रुपये (केवल तीन करोड़ तिरेसठ लाख तीस हजार आव मैसर्स वेस्टर्न सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, श्री हरमिंदर सिंह, बिमलेश, भुवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स डब्ल्एसएस सिक्योरिटी सौ पचपन रुपये तथा सतहत्तर पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023 31.12.2022 को 1,16,85,656.87/- रुपये (केवल एक करोड़ सोलह लाख पिचासी हजार छह मैसर्स डब्लुएसएस सिक्योरिटी सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, श्री हरमिंद सिंह, बिमलेश, भवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स वेस्टर्न सिक्योरिट सौं छप्पन रुपये तथा सत्तासी पैसे) के साथ 01.01.2023 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023 श्री हरमिंदर सिंह, बिमलेश, भुवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैस 30.11.2022 को 1,27,65,234.66/- रुपये (केवल एक करोड़ सत्ताईस लाख पैसठ हजार द वेस्टर्न सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, मैसर्स डब्ल्यएसएस सिक्योरिटी सौ चौंतीस रुपये तथा छियासठ पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023

र्ड-नीलामी संपत्ति का की तिथि करने की विवरण अंतिम तिथि वृद्धिशील बोली एवं समय 4.50 करोड़ रु. हरि नगर गांव नाहरपुर रूपा, जिला गृडुगांव, हरियाणा में स्थित फ्रीहोल्ड निर्मित संपित्त 30.04.2024 दो. 29.04.2024 क्रमांक 59/2 रकबा 245 वर्ग यार्ड के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः राष्ट्रीय 12.00 बजे से अप. 45.00 लाख रु. अप. 4:00 बजे तक 1:00 बजे तक राजमार्ग, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः राम स्वरूप का घर 1.00 लाख रु.

अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- श्री यतेन्द्र कुमार, मोबाइल नंबर १९९०७१९३७१, ई-मेल आईडी:- kumar.yatendra@indusind.com

नियम और शर्ते: 1. इच्छक बोलीदाता अपने ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्य से (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमड निम्नलिखित खाते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से देय होगीः 00053564604005, IFSC Code- INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को य उससे पहले शाम 5:00 बजे तक। कपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सचना है अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांविधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/ऋणभार/ कर बकाया, या कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतु होना चाहिए। उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का कड़ाई से निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी औ पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं- 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर- +91-7080804466, ईमेल आईडी support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊप उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभ या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीत संबंधित भगतान में किसी भी चक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता द्वारा की गई परी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस वे जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चुककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई रिकॉर्स/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankeauctions.com देखें।

ऋणी/गारंटर/रेहनकर्ता को ई-नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज तथा अनुषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतदुद्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, ब्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी तिथि: 11.04.2024 स्थानः नर्ड दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED Address: C 101, 247 Park, L.B.S. Marg,

Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India Tel. No.: +91-8108114949 Website: www.linkintime.co.in

Investor Grievance Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER **EMMFORCE AUTOTECH LIMITED** Ms. Parul Gupta

Address: Plot No. 287, Industrial Area.

Phase II Industrial Estate Panchkula- 134113, Haryana, India Tel No: +91-9876009999; Email: info@emmforce.com Website: www.emmforce.com

Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

Investors can contact the Company Secretary and

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com. the website of the BRLM to the Issue at

www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Emmforce Autotech Limited, Telephone: +91-9876009999; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue, Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Ashok Mehta

details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus.

the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S. under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

1.00 बजे तक

Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Raipath Rangoli Road, Thaltei, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: 079 4918 5784 Email Id: mb@beelinemb.com

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322

Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in SEBI Registration No.: INR000004058

BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

On behalf of Board of Directors For, EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for

www.readwhere.com

Herring Prospectus up to the Bid/Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 289 of the Red Herring Prospectus.

Document. The investors are advised to refer to page 215 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of BSE Limited.

Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 213 of the RHP.

Place: Panchkula, Haryana Date: April 10, 2024 Disclaimer: Ernmforce Autotech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Delhi on April 08, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock

Chandigarh

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] कंपनी के पंजीकत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनिवम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4)

ई सी ई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीई हाउस, 28-ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

जप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती हैं, जिसमें कंपनी अपने पंजिक्रत कार्यालय को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 08.04.2024 को आयोजित साधारण आम बेठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति वा तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता है वा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उतिसंखित हो, एक हलफनामें द्वारा समर्थित आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, दसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली - 110003 पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के मीतर पंजीकृत बाक द्वारा मेज सकता है और एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजें। ईसीई हाउस, 28-ए, कस्तुरवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

के लिए और उनकी और इंसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रकाश कुमार मोहता) दिनांक : 11.04.2024 प्रबंध निदेशक स्थान : नई दिल्ली डीआइंएनः 00191299 IN THE COURT OF SH. AJAY GARG. ADJ-01. EAST, DISTRICT ROOM NO.9, 1ST FLOOR, KARKARDOOMA, COURTS DELHI (P1) Vaibhav Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana-122017 (P2) Vedant Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana-122017

... Petitioners **VERSUS** (R1) THE STATE, Through, The Chief Secretary, Players Buildings, Delhi Secretariat, GNCT of Delhi, Indraprastha. ITO, New Delhi-110002 (R2) Sh. Devansh S/o Sh. Mrinal R/o N-32, Laxmi Nagar, Delhi-92 (R3) Smt. Asha Kalia W/o Sh. Vivek Kalia, R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana (R4) Sh. Uttam Parkash Sharma S/o Late Sh. Om Parkash Sharma R/o 3, Grovedale Court, Clayton Coctoria 3168, Australia (R5) Smt. Chhaya Sharma D/o Late Sh. Uttam Parkash Sharma R/o N-32, N-Block, Near Jagat Ram Park, Laxmi

Nagar, Delhi Respondents PETITION UNDER SECTION 278 OF INDIAN SUCCESSION ACT 1925 FOR GRANT OF LETTER OF ADMINISTRATION IN RESPECT OF THE ESTATE OF DECEASED SMT. SHANTI SHARMA W/O LATE SH. OM PARKASH

Notice is hereby given to the general public that any person having objection for Grant of Letter of Administration of Immovable Property of the deceased Smt. Shanti Sharma W/o Shri Om Parkash R/o H.No.30-A. J & K Block. Laxmi Nagar, Delhi-110092 in respect of Entire Built up property bearing no. N-32, Land Area Measuring 100 Sq. Yds., Alongwith Its Whole of Structure According to the Site Therein, With Roof Rights, With The rights to further/upper Storey, Construction upto The Last Storey, Fitted with Electricity and Water Tap Connections in Running Condition, Out of Khasra No. 57/25, Situated in the Abadi Of Laxmi Nagar. In the Area of Village Khureii Khas, illaga Shahdara, Delhi-110092, Whereas the 22/05/2024 at 10'O clock in the forenoon has been fixed for hearing of the case. notice is hereby given that person having any interest in the administration of the concerned may if he/she desire appear in this Court of the said 22/05/2024 and see the proceedings. der my hand the seal of this court on this 20/02/2024.

> EAST, KKD, **COURTS DELHI**

HINDUSTHAN BUILDING SOCIETY LIMITED

CIN: L45201WB1946PLC013530; Registered Office: 4, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55; Fax No.: (033) 2212 9696 Email: arvindroc33@gmail.com; Website: www.hindusthanbuildingsociety.com;

Notice is hereby given to all the public shareholders of Hindusthan Building Society Limited ("Company") that the Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited, i.e. the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, and also provide an exit opportunity to the public shareholders of the Company. Therefore, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company / ABS Consultant Private Limited ("Registrar" of the Company) at the earliest to enable the Company and the Registrar to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer. Hence, the public shareholders must update their details in the records of the Company to actively participate in the Delisting Offer.

We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physical form are also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise, public shareholders holding their equity shares in physical mode will not be able to transfer them unless they get their equity shares dematerialized.

Shareholders are also requested to kindly refer to SEBI Circular EBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries: ABS Consultant Private Limited

Hindusthan Building Society Limited Pooja Kumari (Company Secretary & Compliance Officer) Tel No.: 9339384226; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55 Email Id: arvindroc33@gmail.com;

(Mr. Uttam Sharma) Email id: absconsultant99@gmail.com;

For Hindusthan Building Society Limited

Place: Kolkata Date: 11.04.2024

Raj Bansal Director DIN: 00545292

कब्जा सूचना

जबिक, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकत अधिकारी के रूप में सरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहर उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामे के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भूगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक / बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	45128640001538 45129660002171 45129660002540 और 4512020000412011	 मैसर्स. राघव पेट्रोकेम प्रा. लिमिटेड, इसके मालिक श्री राकेश कुमार छावड़ा द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री राकेश कुमार छावड़ा (उधारकर्ता), श्री राघव छाबड़ा (गारेंटर) श्रीमती कांता छाबड़ा (गारंटर) 	01.02.2024 रु. 3,38,15,276 / – (तीन करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ छिहत्तर रूपये मात्र) 30.01.2024 तक	तारीखः 08–04–2024 समयः 02:01 दोपहर सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः ग्राम शाहबाद, दौलतपूर, दिल्ली के विस्तारित लाल डोरा में स्थित खसरा संख्या 421 में से 360 वर्ग गज भूमि की अर्ध निर्मित संपत्ति जो श्री राकेश कुमार छाबडा पूत्र श्री चेतन दास छाबड़ा. के स्वामित्व में इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट नंबर 422, पश्चिमः प्लॉट नंबर ४२१ का शेष भाग, उत्तरः प्लॉट नंबर ४१७, दक्षिणः सड़क ८२ फीट चौड़ा।

2	30218640000918	1) मैसर्स. ममता होम	06.02.2024	तारीखः
		एप्लायंसेज, इसके मालिक श्री	रु. 25,11,731 ∕ —	10-04-2024
		विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तुत,	(पच्चीस लाख ग्यारह	समयः
		2) श्री विजय कुमार झाँ	हजार सात सौ	०२:३० दोपहर
		(उधारकर्ता),	इकतीस रूपये मात्र)	
		3)श्रीमती ममता झा (गारेंटर)	05.02.2024 तक	सांकेतिक
				कब्जा

सरक्षित संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 1102, ग्राम सिहानी, परगना लोनी, तहसील और जिल -गाजियाबाद, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज जो श्रीमती ममता झा, पत्नी श्री विजय कुमार झा. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: विक्रेता की संपत्ति, पश्चिम: दूसरों का प्लॉट, उत्तर: रास्त 15 फीट, दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति। जबकि यहां रूपर उल्लिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता देय राशि चकाने र

विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथिये पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊप उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सुचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली एनसीआर हस्ता / –प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक:11.04.,2024. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

Continued from previous page

S. No.

3.

4.

www.readwhere.com

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

Memorandum of Association of our Company:

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय16 / 12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यु.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus

Names of Person

Mr. Ashok Mehta

Mrs. Neetu Mehta

Mr. Azeez Mehta

Ms. Navya Mehta

युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400098 धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (नियमावली) के प्रावधान के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। चुंकि कुछ नोटिस डाक टिप्पणियों के अनुसार सुपूर्द नहीं हो पाए हैं, इसलिए उक्त नोटिस उधारकर्ता को सेवा के वैकल्पिक तरीके यानी समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

		The state of the s
र.सं .	ऋण खाता विवरण	सुरक्षित संपत्ति
01.	उधारकर्ता(ओं) का नामः	वाणिज्यिक भूखंड पर निर्मित क्रमांक बी—194, बी—ब्लॉक में, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर
	1) श्री सतेनारायण एंड कंपनी (उधारकर्ता)	और दिल्ली 110033 पर स्थित निर्मित पहली मंजिल के हिस्से का वह समस्त टुकड़ा और
	2) भारत भूषण (सह—उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)	अंश, बिना छत अधिकार के (अर्थात छत के स्तर तक) जिसका क्षेत्रफल 636 वर्ग फुट
	3) सुनीता गंभीर (सह—जधारकर्ता एवं बंधूककर्ता)	(59.08 वर्ग मीटर के समकक्ष), इसका कवर क्षेत्र लगभग 59.08 वर्ग मीटर के साथ सामान्य
	4) श्री सतनारायण ट्रेडर्स (सह—उधारकती)	सीढ़ियाँ, मार्ग, प्रवेश द्वार, अन्य सभी सामान्य सुविधाओं /
	5) राज कुमार (सह—उधारकर्ता)	सुविधाओं के साथ सुरक्षित भवन में प्रदान की गई, नीचे की भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी
	6) मीनाक्षी गंभीर (सह—उधारकर्ता और बंधककर्ता)	
	स्वीकृत दिनांक: 30/11/2022 ऋण खाता संख्या: USFBDELLOAN00005006195	के साथ है और इसकी चौहद्दी निम्नानुसार है:
	ऋण जाता संख्याः USFBDELLOAN000005006195 ऋण राशिः रु. 91,45,722/—	सीमाएँ (बंधक दस्तावेज़ के अनुसार)
	प्रत्योर ए. 91,43,722/ — एनपीए दिनांकः 04/03/2024	पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क
	डिमांड नोटिस दिनांक: 27/03/2024 (28/03/2024 को भेजा गया)	पश्चिमः ट्रक पार्किंग एस/यार्ड 80 फीट चौड़ा
	डिमांड नोटिस राशिः रु. 92,98,638.83पी (27/03/2024 को) और ब्याज एवं अन्य	उत्तरः दुकान नं 195
	10 110 110 11	^ ~ ·

दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त बकाया राशि चुकाने में विफल होते है तो, अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को लाग् करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो .के लेनदेन या हस्तांतरण करने से रोका जाता है. इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त

दक्षिणः दुकान नं. 193

केप्री ग्लीबल कीपटल लिमिटेड APRIGLOBAL पंजीकत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502. टॉवर-ए. पेनिनसला बिजिनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मम्बई-400013 सर्किल कार्यालय : १ बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के अधिकत प्राधिकार्र होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में निम्नलिखित उल्लिखित राशि का पूनर्भगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के राशि के पुनभुर्गतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज हेतु सीजीसीएल के प्रभार का विषय होगा।

क्र. कर्जदार (रों) / जमानती(यों) के नाम सं. (ऋण खाता संख्या) हमारी फरीदाबाद शाखा के LNCG- COKDTL0000008316) बिनोद कुमार (कर्जदार) श्रीमती कविता तिवारी, प्रकाश तिवारी (सह-कर्जदार)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण संपत्ति मकान नंबर 96 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, भूमि माप 2-1/2 मरला, खसरा नंबर 57/20, प्लॉट नंबर 9 और 10, गली नंबर 2, नंगला मार्ग, मौजा सारन, सुंदर कॉलोनी, सेक्टर - 22, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा - 121005 में निर्मित, सीमा इस प्रका द्वाराः अन्य की संपत्ति, उत्तर द्वाराः अन्य की संपत्ति, दक्षिण		कब्जा करने की तिथि 06-04-2024 (सांकेतिक)
 (ऋण खाता संख्या LNCGCJGDTL0000007767 हमारी आजादपुर शाखा के) राम कुमार शर्मा (कर्जदार) श्रीमती राज बाला, मैसर्स दीक्षा फैब्रिक्स (इसके मालिक के माध्यम से), संजीव कुमार (सह-कर्जदार) 	मकान नंबर 139 का समस्त भाग, खसरा नंबर 586 में से 150 वर्ग गज (125.415 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, ग्राम गढ़ी सबलू, तहसील- लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102,	27-01-2024 表. 20,90,180/-	06-04-2024 (सांकेतिक)
स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 11 अप्रैल, 2024	ह.∕- (अधिकृत प्राधिकारी) कृते कैप्री	ग्लोबल कैपिटल लि	मिटेड (सीजीसीएल

IndusInd Bank (3)

खाता / बंधककर्ताओं /गारंटरों का नाम

मेसर्स आनंद एजेंसीस, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती

पूनम अनंद, श्रीवदी शातिनी आनंद, श्री नीरज आनंद

वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्निर्माण समूह, 1 1वीं मंजिल, हयात शेजेंसी कॉम्पलेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

मांन खुबना अनुसार राशि और

गांग सूचना दिनांक

8. 2,43,19,722,66 दिनांस 31 03 2022 सी, संग 01,84,2022 से अधिक

का ब्याज प्लल तुसार लागत, प्रभारी और व्यथी आदि

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

विधीय असिनायों के प्रतिबृतियनल और पुनर्निर्माण और प्रतिबृति हित प्रयर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिबृति हित (प्रयर्तन) नियमी 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पिटेत के तकत इंडसइंड बैंक के पास गिरबी रखी गई अधल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नी लागी बिक्री सुधना एतर द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारमध्यी/बंधमनार्खाओं /परंटरी को लुचित किया जाता है कि इंडलइंड कैंक तिमिटेड के प्रारिक्त अधिकारी में अधिनियमकी घार 13(2) के तहरा जारी सुचना के तहरा जारी की गई मांग के जनसरण में उल्लेखित निम्नलिखित संचित्र(यॉ) को निम्नलिखित ऋण खाते में भौतिक काळे में ''जो है जहां है'', ''जो है जैसा है, वहां जो कुछ भी है और दावित्व रहित आधार'' पर बिक्री के अधिकार के लाथ प्राप्त कर तिया, बैंक की व्यवस्या रक्षियों की वसली के लिए और बवस्या चवाने में विपरनेता के परिजामस्वरूप, एक निवमी के नियम 8 के साथ-साथ उक्त अधिनिवम की धारा 13(4) के तहत प्रदन गांकि का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी जल संगति की दिसी द्वारा बैंक की बकाया राति को वसूल करने का प्रस्ताय करता है। नीचे उल्लेखित संतरियों की बिज्ञी वेब गोर्टल : https://www.bankauctions.com के गाय्यम से ई--गीलामी के गाय्यम से आयोजिल की जाली

पूर्वन कर्मक, अल्प्या संस्तिमा कारक, अर्थ मारक कारक	100		F: 21.06.2022	
मैसर्स (म एस देडर्स, सुभाष आनंद, श्री पंकत आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शासिनी आनंद, श्री नीरज आनंद	स. 5,35,48,427,21 दिनांक 31.03.2022 को, रूग 01.04.2022 का स्थाव पत्तर वरायर लागत, प्रमारों और व्ययों आदि मान सूचना दिनांक: 21.06.2022			
नीरज अनंद, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनन आनंद, श्रीमती बालिनी आनंद, मैसर्स आनंद एजेंसीस		। ब्याज प्लस संस्कर ला	9.2022 को, संग 01.04.2 एत, प्रभारों और व्यव्हों आदि १२.21.06.2022	
गीरज गेला मा. ति., गीरज आनंद, गुभाव आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनन आनंद, श्रीमती शांतिनी आनंद, मैतर्स आनंद एजेंतीस	रू. 2,28,28,487.16 दिनांक ३१.०३.२०२२ को, संग ०१.०४.२०२२ से मक्तिय का ब्याज परस उसपर लागा, प्रमारों और व्ययों आदि मांग सुखना विनांक: 21.08,2022			
संपत्तियाँ का विवरण		आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली युद्धि गरि।	ईगीलामी की दिनांक और समय	बोली जमा करने की अंतिम दिनांद
पकान सं. 16/32, तीसरा तल, तिलक नगर, नई दिलती	मापक सुपर क्षेत्र	#. 70.60 imm	(१२.१६.२११४ को पूर्वह	30.04,2024
2 14 वर्ग रज वर संपूर्ण व सर्वागीण भाग ।		W. T.OS HTM	10,00 वरे में एडांड	SFE. 4:00
		ल, 1,00 लाह	11.00 मने नक	सर्व रख
लपूर्व प्रथम तत, बिना एत् अधिकार्व, लपति सं. सी-2/315-	-आई पर निर्मित,	च. 240.00 सम्ब	02.06.2024	*****
मापेक क्षेत्र 279.03 वर्ग मीटर, और वालू हालात में पांगी, बिजली और 5 कनेक्शन, सन सीवियां, शस्ता और लिगट का साझा अधिकार, मूमि अं समानुवातिक अधिकार, संग रिटल्ट पार्सिंग क्षेत्र में कार पार्धिंग लगह, रिश्रेत जन नर्च दिल्ली		11. 24.00 STR	को सीवहर 12.00 बाते से अस्पाद 1.00 को नक	30:04:2024 391, 4:20 903 208
		9. 1.00 H7S		

प्राधिकृत अधिकारी के संपर्क विवरण-यतेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर २२२०७१२३४२, ई-मेल आईडी : kumar.yatendra@indusind.com

निकार और कर्ने: १, इंग्लूब बोलीक्स अपने ईरमके विकास और देखावित्र केंद्र पोर्टन https://www.bankpaucisons.com पर सर्वित आईटी और पासवर्ट के महण्यन में (मुक्ता अर्थरी और प्रस्तवर्द https://www.banksouctions.com के साथ नाम इसे करके मुख्य में बात किया जा सकता है) के नामान में तान करिये (ईएसप्री विकालिक साथे में प्रारोधको /बारकेकीक के मानक के देव होती: 00053564904005, IFSC Code- #4D90000005 प्रारोध करिया में प्रतिस्थित की स इससे पहले क्रायह 450 बने उका कृषण ध्यान है कि चेब को इंग्रमही होंग के रूप में ध्येषार नहीं किया जाएगा। 2. प्रतिकृत अधिकारी की मसीटम जानकारी और मुख्य के अनुपार, मंत्रीन कर, गोरावटी करूक आदि जैसे साविधक देव पत्रि पा कोई था नहीं है। सन्तिक धैक कियों भी बकाश वैधानक देव सरितकृषकार कर बकाश, वदि कोई होगर के लिए जिम्बेदार नहीं होगा। इच्छूक केलीदानाओं को कुरानार, शंबीन के जोर्चक के को में अपनी स्थाने पुरस्तार करनी खड़िए और खुद का निरोधण और संसूष्ट होना चाहिए। सम्पन्ति का कहाई के निरीक्षण 15.002,2024 को दोषहर 12.00 बारे में अनसक 1,00 बारे के बीच किया जा मकता है। 3, इयहक बीलीक्षण क्रिकेटी हेराएडी अन्य कर ही हैं और लॉरिंग आईसे और परवार्ध करने, देश अवसंख करने, बीसी जरूर काने, ई-बीसी खीडण कर फीस्टर आदि में रहावता की अवसरकार है, से सबसे सेक प्रकृत पेपार्ग की। इतिया प्राप्तिक विविदेश, केल्पाल्या नंबर से कीलों कर पार्था हैं - 0124-4322026/2221/2224, 2224, 2226, की विविद्रेश, केल्पाल्या नंबर से कीला कर पार्था हैं - 0124-4322026/2221/2224, 2224, 2226, की विविद्रेश, केल्पाल्या नंबर से कीला कर पार्था हैं - 0124-4322026/2221/2224, 2224, 2226, विविद्रेश, केल्पाल्या नंबर से कीला कर पार्था हैं - 0124-4322026/2221/2224, 2224, 2226, विविद्रेश, कीला कर पार्था हैं - 0124-4322026/2221/2224, 2226, होगा आहें। support@bankebuctions.com और तार्यन के तार्यापत किरते में इसन के लिए, बार्य निकरों (गुन्हर 10 बने से बात 5 बने तन) के सैंगन कार्यालय ताम में करर वॉल्सिक अधिकत अधिकते से संदर्भ कर सकते हैं।4. कथवन बोली इंडाइट बैंक लिक्टिड के अनुबोधन के अधीन होती। प्राधिकत अधिकरों के पास इस प्रकार प्राप्त सभी का किसी भी क्रमाव कोली को किया कोई कारण कन्नर स्वीकार अस्त्रीकार करने का अधिकार मुर्गाहरू है। उनका निर्मय और वारवकारी होना 🧲 निर्माहरू अवित के बीतर संबंधित पुरवान में किसी भी शुक्र के मानते में, रिवरी स्वावतिक रूप में यह कर दी प्रकृषी और बोलीवात हारा की गई पूरी प्रम्य वर्तन और वसाम राति किया कियाँ नेटिय के जान कर रहे जाकरों और संबंधि को किर से बेच दिख जाकर । पुरुवारों को बेच वैक व्यक्ति के प्रतिकृत के प्रिक्त की किर के विरुद्ध कोई रिक्टिय को किर से कि forge from sitt and in first that of storage warwindusind.com six warwbankeauctions.com this

रास्फेर्सी अधिनियम, 2002 के नियम 8(8) और नियम 9(1) के तहत वैद्यानिक 15 दिनों की विकी सुबना उचारकर्ता / गरटर / बंधवन्तर्ताओं को ई-मीलागी की दिनांक से पहले अदादित ब्याज और सहायक व्यय के साथ उत्पर उल्लेखित राणि का भूगतान करने के लिए अधिमृदित किया जाता है, जिसमें चुक होने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष रहि।, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साव वसूल की जाएगी।

स्थान: नई दिल्ली

Number of Shares Allotted

75,00,000

74.99,500

100

100

तिथि: 11.04.2024 **BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE**

प्राधिकत अधिकारी, इंडसइंड बॅंक लिमिटेड

UNITY Street

आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर

युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताकून (ई), मुंबई - 400 098

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

डिमांड नोटिस की तारीख

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यूनिटी रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृ त अधिकारी के रूप में सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि भूगतान करने के लिए नीचे उल्लिखित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया है।

निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के

तहत 05/04/2024 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन उल्लिखित राशि के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शूल्क और उस पर ब्याज. के अधीन होगा। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा—13 की उप—धारा 8 के प्रावधानों की ओर

गिरवी रखी गई संपत्तियों / संपत्तियों का विवरण

	का नाम जार ऋग खाता तख्या	L. Control of the con	आर बकाया शारा
1. भगत सिंह अचल संपत्तियों का वह सारा टु 2. रोशनी सी वर्णित है:- ऋण खाता संख्या:- खेवट/खाता नंबर 183/199 मुस्त 1. USERDELL OAN00005007853 20/1 (5-7). किठवाड़ी तहसील		खेवट / खाता नंबर 183 / 199 मुस्तातिल नंबर 9, किला नंबर 11ध्2 (1–17),	मांग सूचना दिनांक 12.10.2023 राशि हेतु रु. 24,05,954.35 पैसे (रुपए चौबीस लाख
	और 2. USFBDELLOAN000005007857	सीमाएँ (बंधक दस्तावेज के अनुसार) पूर्व — 13 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर — राजाराम की संपत्ति पश्चिम — करण दलाल का प्लॉट दक्षिण — जग्गू की संपत्ति	और अन्य शुल्क।
	दिनांकः 11/04/2024 स्थानः पलवल, ह	रियाणा हस्ता/— प्राधिकृत र	अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see"Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

Indusind Bank (d)

खाते/बंधककर्ता और

फाइनेंशियल रीस्टक्चरिंग एंड रीकंस्टक्शन ग्रुप, 11वीं मंजिल. हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स. न्य टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

डिमांड नोटिस के अनसार राशि व

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतू सार्वजनिक सुचना प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज व

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अधीन इंडसइंड बैंक को रेहन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री। एतदद्वारा आम जनता को तथ विशेष रूप से ऋणी/बंधक/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जार्र नोटिस के तहत जारी की गई मांग के अनसार उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित अनसार बैंक की बकाया राशि और ब्याज की वसली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में जैसी है जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, वहां जो कुछ मौजूद है और बिना संसाधन के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ लिय है और जबकि चकाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शत्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक बकाया की वसुली का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री होगी वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि			
भुवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स डब्लूएसएस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	30.11.2022 को 3,63,30,855.77/- रुपये (केवल तीन करोड़ तिरेसठ लाख तीस हज सौ पचपन रुपये तथा सतहत्तर पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि : 06.02.2023	लागत,		
	31.12.2022 को 1,16,85,656.87/- रुपये (केवल एक करोड़ सोलह लाख पिचासी हज सौ छप्पन रुपये तथा सत्तासी पैसे) के साथ 01.01.2023 से आगे के ब्याज जमा उस पर शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि : 06.02.2023			
	30.11.2022 को 1,27,65,234.66/- रुपये (केवल एक करोड़ सत्ताईस लाख पैसठ ह सौ चौंतीस रुपये तथा छियासठ पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि : 06.02.2023			
संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ई-नीलामी बोली ईएमडी की तिथि करने वृद्धिशील बोली एवं समय अंतिम	की		

हरि नगर गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित फ्रीहोल्ड निर्मित संपि 4.50 करोड़ रु. 30.04.2024 दो. 29.04.2024 क्रमांक 59/2 रकबा 245 वर्ग यार्ड के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पर्वः राष्ट्रीय 45.00 लाख रु. 12.00 बजे से अप. अप. 4:00 1:00 बजे तक राजमार्ग, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः राम स्वरूप का घर 1.00 लाख रु. अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- श्री यतेन्द्र कुमार,

मोबाइल नंबर १९९०७७९३७, ई-मेल आईडी:- kumar.yatendra@indusind.com नियम और शर्तैः 1. इच्छुक बोलीदाता अपने ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्य

से (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमड निम्नलिखित खाते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी: 00053564604005, IFSC Code- INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को य उससे पहले शाम 5:00 बजे तक। कपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सचना अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांविधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/ऋणभार/ कर बकाया, य कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पुछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संत् होना चाहिए। उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का कडाई से निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी औ पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं– 0124–4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर– +91–7080804466, ईमेल आईडी support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊप उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सर्भ या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीत संबंधित भुगतान में किसी भी चुक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता द्वारा की गई पुरी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस ^{दे} जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चुककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई रिकॉर्स/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियग और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankeauctions.com देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना ऋणी/गारंटर/रेहनकर्ता को ई-नीलामी तिथि से पर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज तथा अनषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतदहारा अधिसचि

किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, ब्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी

स्थानः नर्ड दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि.

Ms. Parul Gupta

Haryana, India

REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Tel No: +91-9876009999;

EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

Address: Plot No. 287, Industrial Area,

Phase II Industrial Estate Panchkula- 134113,

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltej, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India.

Telephone Number: 079 4918 5784 Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322

LINKIntime LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

Address: C 101, 247 Park, L.B.S. Marg.

Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India Tel. No.: +91-8108114949 Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

Email: info@emmforce.com Website: www.emmforce.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective

beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com. the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Emmforce Autotech Limited, Telephone: +91-9876009999; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue, Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

Ashok Mehta

Managing Director

Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S

नर्ड दिल्ली

5. Mr. Narinder Krishan Miglani 100 Mr. Gaurav Miglani 100 Mr. Saurav Miglani 100 Total 1,50,00,000

For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus. LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our Company has received an in-principle approval from the BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated March 01, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be SME Platform of BSE Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on April 08, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 289 of the Red Herring Prospectus

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 21,00,00,000 divided into 2,10,00,000 Equity

Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹15,00,00,000 divided into 1,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each. For

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below

are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the

विगांश: 11.04.2024

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 213 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer Document. The investors are advised to refer to page 215 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of BSE Limited.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 22 of the Red Herring Prospectus.

Place: Panchkula, Haryana

Date: April 10, 2024

Disclaimer: Emmforce Autotech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Delhi on April 08, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock

under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के सप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में ई सी ई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ईसीई हाउस, 28-ए,

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य र बदलने में राजम बनाने के लिए 08.04.2024 की आयोजित साधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पृष्टि करने की माग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हिए कंपनी के पंजीवृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होने की संमावना है, तो वह व्यक्ति या तो एमसीए-25 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रक्रम फाइल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें जनके हित का प्रकार और उसके मिरोच का कारण डल्लिकित हो, एक हलफानाने डारा समर्थित आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, पंक्ति दीनदवार अंत्योदय मधन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली - 110003 पर इस सुधना के प्रकाशन की तारीख से घीदह दिनों के मीतर पंजीकृत बाक द्वारा भेज सकता है और एक प्रति वाविकाकती कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजें। ईसीई हाउस, 28-ए, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई विल्ली-110001

के लिए और उनकी ओर इंसीई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रकाश व्यागर मोहला) दिनाक : 11.04.2024 प्रबंध निदेशक स्थान : नई विल्ली बीआईएनः 00191299

IN THE COURT OF SH. AJAY GARG, ADJ-01, EAST, DISTRICT ROOM NO.9, 1ST FLOOR. KARKARDOOMA. COURTS DELHI (P1) Vaibhav Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana-122017 (P2) Vedant Kalia S/o Sh. Vivek Kalia R/o H.No. 1643,

Sector-23, Gurugram, Haryana-122017

..... Petitioners

VERSUS (R1) THE STATE, Through, The Chief Secretary, Players Buildings, Delhi Secretariat GNCT of Delhi Indranrastha ITO, New Delhi-110002 (R2) Sh. Devansh S/o Sh. Mrinal R/o N-32, Laxmi Nagar, Delhi-92 (R3) Smt. Asha Kalia W/o Sh. Vivek Kalia, R/o H.No. 1643, Sector-23, Gurugram, Haryana (R4) Sh. Uttam Parkash Sharma S/o Late Sh. Om Parkash Sharma R/o 3, Grovedale Court, Clayton Coctoria 3168. Australia (R5) Smt. Chhava Sharma D/o Late Sh. Uttam Parkash Sharma R/o N-32, N-Block, Near Jagat Ram Park, Laxmi

Nagar, Delhi Respondents PETITION UNDER SECTION 278 OF INDIAN SUCCESSION ACT 1925 FOR GRANT OF LETTER OF ADMINISTRATION IN RESPECT OF THE ESTATE OF DECEASED SMT. SHANT SHARMA W/O LATE SH. OM PARKASH SHARMA.

Notice is hereby given to the general public that any person having objection for Grant of Letter of Administration of Immovable Property of the deceased Smt. Shanti Sharma W/o Shri Om Parkash R/o H.No.30-A, J & K Block, Laxmi Nagar, Delhi-110092 in respect of Entire Built up property bearing no. N-32. Land Area Measuring 100 Sq. Yds., Alongwith Its Whole of Structure According to the Site Therein. With Roof Rights With The rights to further/upper Storey. Construction upto The Last Storey, Fitted with Electricity and Water Tap Connections in Running Condition, Out of Khasra No. 57/25, Situated in the Abadi Of Laxmi Nagar, In the Area of Village Khureji Khas, illaqa Shahdara, Delhi-110092. Whereas the 22/05/2024 at 10'O clock in the forenoon has been fixed for hearing of the case, notice is hereby given that person having any interest in the administration of the concerned may if he/she desire appear in this Court of the said 22/05/2024 and see the proceedings. der my hand the seal of this court on this 20/02/2024.

Seal **COURTS DELHI**

HINDUSTHAN BUILDING SOCIETY LIMITED

CIN: L45201WB1946PLC013530; Registered Office: 4, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55; Fax No.: (033) 2212 9696 Email: arvindroc33@gmail.com; Website: www.hindusthanbuildingsociety.com;

NOTICE

Notice is hereby given to all the public shareholders of Hindusthan Building Society Limited ("Company") that the Promoters of the Company intend to delist the equity shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited, i.e. the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, and also provide an exit opportunity to the public shareholders of the Company. Therefore, the public shareholders of the Company are hereby requested to kindly update their address, contact details and email IDs with the Company / ABS Consultant Private Limited ("Registrar" of the Company) at the earliest to enable the Company and the Registrar to take steps for effective participation of public shareholders in the Delisting Offer. Hence, the public shareholders must update their details in the records of the Company to actively participate in the Delisting Offer.

We would also like to bring to the notice of the public shareholders that the Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020 has clarified that shareholders holding equity shares in physical form are also allowed to tender their equity shares in the Delisting Offer. Otherwise, public shareholders holding their equity shares in physical mode will not be able to

transfer them unless they get their equity shares dematerialized. Shareholders are also requested to kindly refer to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 towards the common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination

The shareholders can contact the below mentioned personnel for their queries:

Hindusthan Building Society Limited (Company Secretary & Compliance Officer) Tel No.: 9339384226; Tel No.: (033) 2212 6753/54/55 Email ld; arvindroc33@gmail.com;

ABS Consultant Private Limited (Mr. Uttam Sharma) Email id: absconsultant99@gmail.com;

For Hindusthan Building Society Limited

Place: Kolkata Date: 11.04.2024

Raj Bansal Director DIN: 00545292

कब्जा सूचना

जबिक, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को मांग सचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भूगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

	3			
क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक ⁄ बकाया देय (रुपये में)	दिनांक / समय एवं कब्जे का प्रकार
1	45128640001538 45129660002171 45129660002540 और 4512020000412011	1) मैसर्स. राघव पेट्रोकेम प्रा. लिमिटेड, इसके मालिक श्री राकेश कुमार छाबड़ा द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री राकेश कुमार छाबड़ा (उधारकर्ता), 3) श्री राघव छाबड़ा (गारेंटर) 4) श्रीमती कांता छाबड़ा (गारंटर)	01.02.2024 रु. 3,38,15,276 /— (तीन करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ छिहत्तर रूपये मात्र) 30.01.2024 तक	तारीखः 08–04–2024 समयः 02:01 दोपहर सांकेतिक कब्जा
- 31		, ,		

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः ग्राम शाहबाद, दौलतपुर, दिल्ली के विस्तारित लाल डोरा में स्थित खसरा संख्या ४२१ में से ३६० वर्ग गज भूमि की अर्ध निर्मित संपत्ति जो श्री राकेश कुमार छाबड़ा पुत्र श्री चेतन दास छाबड़ा. के स्वामित्व में इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट नंबर 422, पश्चिमः प्लॉट नंबर ४२१ का शेष भाग, उत्तरः प्लॉट नंबर ४१७, दक्षिणः सङ्क ८२ फीट चौड़ा।

30218640000918	1) मैसर्स. ममता होम	06.02.2024	तारीखः
	एप्लायंसेज, इसके मालिक श्री	रु. 25,11,731 ∕ −	10-04-2024
	विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तुत,	(पच्चीस लाख ग्यारह	समयः
	2) श्री विजय कुमार झाँ	हजार सात सौ	02:30 दोपहर
	(उधारकर्ता),	इकतीस रूपये मात्र)	
	3)श्रीमती ममता झा (गारेंटर)	05.02.2024 तक	सांकेतिक
			कब्जा
	30218640000918	एप्लायंसेज, इसके मालिक श्री विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तुत, 2) श्री विजय कुमार झा (उधारकर्ता), 3)श्रीमती ममता झा (गारेंटर)	एप्लायंसेज, इसके मालिक श्री विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तुत, 2) श्री विजय कुमार झा (उधारकर्ता), 3)श्रीमती ममता झा (गारेंटर) एंट.02.2024 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः खसरा नंबर 1102, ग्राम सिहानी, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, क्षेत्रफल 160 वर्ग गज जो श्रीमती ममता झा, पत्नी श्री विजय कुमार झा. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार है: पुर्वः विक्रेता की संपत्ति, पश्चिमः दूसरों का प्लॉट, उत्तरः रास्ता 15 फीट, दक्षिणः विक्रेता की संपत्ति।

जबिक, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता देय राशि चकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली एनसीआर हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी, दिनांक:11.04..2024, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

Continued from previous page

S. No.

4.

5.

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

Memorandum of Association of our Company:

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय16 / 12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

Names of Person

Mr. Ashok Mehta

Mrs. Neetu Mehta

Mr. Azeez Mehta

Ms. Navya Mehta

Mr. Gaurav Miglani

Mr. Saurav Miglani

For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 59 of the Red Herring Prospectus.

investors is invited to 'Risk Factors' on page 22 of the Red Herring Prospectus.

Mr. Narinder Krishan Miglani

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 21.00.00.000 divided into 2.10.00.000 Equity

Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹15,00,00,000 divided into 1,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each. For

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below

are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our Company has received an in-principle

approval from the BSE Limited for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated March 01, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be

SME Platform of BSE Limited. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on April 08, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration

to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way

be deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the offer

GENERAL RISK: Investments in equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take

the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision,

investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the

Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the

Herring Prospectus up to the Bid/Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 289 of the Red Herring Prospectus

Document. The investors are advised to refer to page 215 of the Red Herring Prospectus for the full text of the Disclaimer clause of BSE Limited.

Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 213 of the RHP.

UNITY Street

स्थानः आजादपुर, दिल्ली दिनांकः 11/04/2024

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400098

धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी. यनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिट

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (नियमावली) के प्रावधान के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। चुंकि कुछ नोटिस डाक टिप्पणियों के अनुसार सुपूर्द

नहीं ह	नहीं हो पाए हैं, इसलिए उक्त नोटिस उधारकर्ता को सेवा के वैकल्पिक तरीके यानी समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से दिए जा रहे हैं।				
क्र.सं.	ऋण खाता विवरण	सुरक्षित संपत्ति			
01.	उधारकर्ता(ओं) का नामः 1) श्री सतनारायण एंड कंपनी (उधारकर्ता) 2) भारत भूषण (सह—उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 3) सुनीता गंभीर (सह—उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 4) श्री सतनारायण ट्रेडर्स (सह—उधारकर्ता) 5) राज कुमार (सह—उधारकर्ता) 6) मीनाक्षी गंभीर (सह—उधारकर्ता और बंधककर्ता) स्वीकृत दिनांकः 30/11/2022 ऋण खाता संख्याः USFBDELLOAN00005006195 ऋण राशिः रु. 91,45,722/— एनपीए दिनांकः 04/03/2024 डिमांड नोटिस दिनांकः 27/03/2024 (28/03/2024 को भेजा गया) डिमांड नोटिस राशिः रु. 92,98,638.83पी (27/03/2024 को) और ब्याज एवं अन्य	वाणिज्यिक भूखंड पर निर्मित क्रमांक बी—194, बी—ब्लॉक में, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर और दिल्ली 110033 पर स्थित निर्मित पहली मंजिल के हिस्से का वह समस्त टुकड़ा और अंश, बिना छत अधिकार के (अर्थात छत के स्तर तक) जिसका क्षेत्रफल 636 वर्ग फुट (59.08 वर्ग मीटर के सामकक्ष), इसका कवर क्षेत्र लगभग 59.08 वर्ग मीटर के साथ सामान्य सीढ़ियाँ, मार्ग, प्रवेश द्वार, अन्य सभी सामान्य सुविधाओं / सुविधाओं के साथ सुरक्षित भवन में प्रदान की गई, नीचे की भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ है और इसकी चौहदी निम्नानुसार है: सीमाएँ (बंधक दस्तावेज़ के अनुसार) पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क परिचमः ट्रक पार्किंग एस/यार्ड 80 फीट चौड़ा उत्तरः दुकान नं. 195			

दक्षिणः दुकान नं. 193 यदि 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त बकाया राशि चुकाने में विफल होते है तो, अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को लागू करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो .के लेनदेन या हस्तांतरण करने से रोका जाता है. इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता. यदि चाहें. तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड APRIGLOBAL

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापित बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 सर्किल कार्यालय : १बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के अधिकत प्राधिकार होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में निम्नलिखित उल्लिखित राशि का पूनर्भगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के राशि के पुनभुर्गतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृत हित प्रवर्तन नियम, 2002 वे नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति

परिशिष्ट-IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर भावी ब्याज हेतु सीजीसीएल के प्रभार का विषय होगा।

प्रं.	(ऋण खाता संख्या)	प्रातभूत आस्त (अचल सम्पात्त) का विवरण	तिथि तथा राशि	की तिथि
1.	हमारी फरीदाबाद शाखा के LNCG- COKDTL0000008316) बिनोद कुमार (कर्जदार) श्रीमती कविता तिवारी, प्रकाश तिवारी (सह-कर्जदार)	संपत्ति मकान नंबर 96 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, भूमि माप 2-1/2 मरला, खसरा नंबर 57/20, प्लॉट नंबर 9 और 10, गली नंबर 2, नंगला मार्ग, मौजा सारन,	27-01-2024 ₹. 20,40,014/-	06-04-2024 (सांकेतिक)
		सुंदर कॉलोनी, सेक्टर - 22, तहसील बडखल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा - 121005 में निर्मित, सीमा इस प्रका द्वाराः अन्य की संपत्ति, उत्तर द्वाराः अन्य की संपत्ति, दक्षिण		की संपत्ति, पश्चिम
2.	(ऋण खाता संख्या LNCGCJGDTL0000007767 हमारी आजादपुर शाखा के) राम कुमार शर्मा	मकान नंबर 139 का समस्त भाग, खसरा नंबर 586 में से 150 वर्ग गज (125.415 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, ग्राम गढ़ी सबलू, तहसील- लोनी, जिला गाजियाबाद,	27-01-2024 ₹5. 20,90,180/-	06-04-2024 (सांकेतिक)
	(कर्जदार) श्रीमती राज बाला, मैसर्स दीक्षा फैब्रिक्स (इसके मालिक के माध्यम से), संजीव कुमार (सह–कर्जदार)	उत्तर प्रदेश - 201102,		
स्था	न : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 11 अप्रैल, 2024	ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कृते कैप्री	ग्लोबल कैपिटल लि	मेटेड (सीजीसीएल)

IndusInd Bank (3)

खाता/ बंधककर्ताओं /गारंटरों का नाम



वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्निर्माण समूह, 1 1वीं मंजिल, हयात शुजसी कॉम्पलेक्स, न्यु टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

मांन सूचना अनुसार राशि और

गांग सुद्धना दिनांक

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वितीय अस्तियों के प्रतिपृतिपत्य और पुनर्निर्माण और प्रतिपृति हित प्रवर्तन अविनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिपृति हित (प्रवर्तन) नियमी 2002 के नियम 8[6] के परंतुक के साथ पटित के एसत इंसराईड बैंक के पास गिरवी रखी गई अधन संपंतियों की बिक्री के लिए ई--नीलामी बिक्री सुधना एतद द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उद्याकार्ज /बंधमनार्जओं /गरंटरी को लुकित किया जाता है कि इंडसइंड कैंक लिमिटेड के प्राक्षिकत अधिकारी ने अभिनिधम की भार 13(2) के तहर जारी सुधना के रहत जारी की गई मांग के असुसरण में उरलेखित निम्नलिखत संबंधि(कों) को निम्नलिखित ऋण खारे में भौतिक काळे में ''जो है जहां है'', ''जो है जेसा है, वहां जो कुछ भी है और दावित्व रहित अधार'' पर बिक्री के अधिकार के ताथ प्राप्त कर तिया, बैंक की बकरमा राजियों की वसूली के लिए और बकरमा मुकाने में विकलात के परिजागरकरूप, एक निवर्ग के नियम 🛭 के साथ-साथ एक अधिनिवम की धारा 13(4) के तहत प्रदन गाति को प्रयोग करते हुए अधोहरलाक्ष्मी जल गंगनि की दिसी द्वारा बैंक की बढ़ाया राति को वन्तुल करने का प्रश्ताव करता है। नीचे उललेखित संगतियों की बिल्ली देव गोर्टरर : https://www.bankauctions.com के माध्यम से ई--गीलामी के माध्यम से आयोजित की जाली।

मेंसर्ल आनंद एजेंलीस, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती पूनम अनंद, श्रीवती शासिनी आनंद, श्री मीरज आनंद		ग ब्याज प्लस उसार ला	१ २०२२ स्हे, संग ०१,६४.३ गठ, प्रभास और व्यय्वे आदि १६ २१.०६.२०२२		
मेसर्स एम एस देवर्त, सुभाष कानंद, श्री पंकत कानंद, श्रीमती पूनम जानंद, श्रीमती शासिनी आलंद, श्री नीरज आनंद		ध स्थात प्लंश वरावर ला	3.2022 को, स्म 01.84.2 गत, प्रभारों और व्ययों आदि १ १.21.06.2022		
नीरज अनद, सुभाष आनंद, श्री चंकज आनंद, श्रीमती चूनल आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, मैलर्स आनंद एजेंगीस		श ब्याज प्लास प्रसम्बर ला	9 २०२२ की, संग 0 1.04.2 पत, प्रभारों और व्ययों सादि पर 2 1.06.2022		
गीरज गेला प्रा. ति., गीरज आनंद, सुभाग आनंद, श्री पंष्रज क. 2,20 आनंद, श्रीमती पूनन आनंद, श्रीमती श्रातिनी आनंद, मेरस्र्य आनंद एजेंसीस		28,20,487.16 विनांक ३१.०३.२०२२ को, संग ४१.०४.२०२२ से मक्तिय का ब्याज प्रतस उत्तपर लागत, प्रभारों और व्ययों आदि भाग सूकत विनांक: 21.08,2022			
MSTRL SI		आरक्षित नूल्य	ई-शिलामी	बोली जमा	
संपत्तियाँ का विवरण	- 0	इंएमडी	की दिनांक	करने वरि	
MANAGEMENT TO TAKE TO THE PARTY OF THE PARTY		योली वृद्धि गरि।	और समय	अंतिम दिनांद	
पकान सं. 16/32, तीसरा तल, तिलक नगर, गई दिल्ली प	रापक सुपर क्षेत्र	♥. 70.60 H7W	02:05:2024 wit going	30:04:2024	
214 वर्ग रज वर संपूर्ण व सर्वांगीण भाग।	- SOUR ALANA	8.7.05 HTM	10.00 वर्ष में पुत्रीह	371. 4:00	
Modern McWaster and Comment	- VI VIII	B. 1,00 2782	11.00 मंद्रे सक	क्षत्रे शह	
ल्यूमें प्रथम तत, बिना क्रत अधिकार्य, लंगमि सं. सी-2/311-	आहे पर निर्मित,	च. 240.00 त्वच	का समार १२.०० अ		
मापेक संत 279 03 वर्ग मीटर, और बालू हालात में पांनी, कि	स्ती और सिवेत	W. 24.00 SER		30,04,2024 SFE 4:00	
बनेक्शन, संग सीदियां, शस्ता और लिगटे का लाहा अधिकार समृत्युवादिक अधिकार, संग स्टिस्ट पार्सिंग क्षेत्र में कार पार्टिंग तथा,	्रमान आतम्ब रियत जनकपुरी	9, 1,00 HTS		क्ले सम	

प्राधिकृत अधिकारी के संपर्क विवरण-यतेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर 9990799379, ई-मेल आईडी : kumar.yatendra@indusind.com

Feet all tell to project distant and prod force all contra distriction https://www.bankpauctions.com or effet entit all tenes is record में (पास आईटी और पासवर्ट https://www.harskequations.com के साथ जाम इसे काके कुछ में बात दिया का सकता है) के पासवा में जान करेंगे। ईरमार्थी विम्मीलीयाः बाटे में मुन्देहमटी /बारदीजीया के मानम में देन डीमी: coccassespance, IFSC Code- INDE00000005 उपनेत व्हीपमा में प्रीलविक विविधी को प हाती फले उपवह 450 मते उका कुमन प्यान है कि चेक भी इंप्रमार्ट जीत के रूप में धर्मकर तार्टी किया जाएक। 2. डॉविक्स ऑफार्ट की समीटम जानकरी और सुपन के अनुष्या, संबंधि कर, होताबर्ट करूक आहे की तर्पात प्रविधक हेव तीन पर कोई पत नहीं है। तालांकि बैंक कियों पी बरवादी वैपालिक देव टॉलिक्सपाट कर बरुपाद वंद कोई होगा, के निवर जिल्हेंदान नहीं होगा। इच्छूक चेन्डेंदानानों को बहारतर, तर्वने के शोर्चक के बते में अपनी त्याने पुरानार करने धारिए और खुद का निरीक्षण और तर्नुष्ट होना चाहिए। सम्पन्नि का काहर्ष के निरीक्षण 15 00,2004 की दीपरंग 12 00 जो से अगरक 1,00 करे के खेप किया का प्रकार है। 5, इपहुरू बीटविक्रण जिन्होंने हेरपड़ी जनन कर ही हैं और लॉफेंग आईसी और प्रभवर्त करने, देश अपसंद करने, चीरते जब करने, ई-चीरते प्रक्रिय पर प्रतिकार आदि में रहात्रवा भी अवस्थवान है. से बचरे सेवा प्रक्रव पोर्मा की। इतिया प्रापृत्ते विवित्तेत विकासमूत्र नेवर में प्रियमित समापति हैं- 0134-4322020/2221/2022/2222/3224, की विकास कुमार, पे. नेवर- +91-7000824466, होगा आणि support@bankatuctions.com और रायीत से सम्बंधन कियो में प्राप्त के लिए, बार्य विवास (सुबार 10 वर्त से साम 5 वर्त तक) के खैरान कार्याल ताम में करा प्रतिमंत्रिक अधिकत अधिकते से सम्बंदित सकते हैं। 4. प्रधान बोसी इंडाइट कैंक निर्माट के अधीन के अधीन होती। प्रतिकृत अधिकती के पास इत प्रवार प्रथा सभी का विरोहें भी प्रभाव कोती को किया कोई कारण करण स्वीकार असरीकार करने का अधिकार मुस्लिट है। प्रस्था निर्मा और बारककारी होगा। 5, निर्मारिक अपनि के भीतर संबंधित पुण्यान में किसी भी पुक्र के समर्थ में, रिक्की स्पाप्तिक रूप में रह कर दी प्रसूपी और वेशीयता हात की गई पूर्व की तांत और वास्त्व रहीत किस विक्री जीटेम के जान कर तो जाएंथे और मंत्रीत को किए में केन दिया जाएए। जुकावती बोलीवता के पान वैकावतीयपुर अधिकारी के फिटव कोई रिकॉर्स-वारा नहीं होया। 6 विपन्न निषय और सने के निय केंब को वेबपहर www.indusind.com और www.bankeauctions.com रेखें।

रास्फेरी अविनियम, 2002 के नियम 8(8) और नियम 9(1) के तहत वैद्यानिक 15 दिनों की विक्री सुबना क्षाहरूली/परंटर/बंधककर्ताओं को ई-नीलागी की दिनक से पहले अदादित ब्याज और सहायक व्यव के साथ अधर उल्लेखित रात्रि का प्रवतन करने के जिए अधिमृथित किया जाता है, जिसमें चुक होने पर संरथि जी नीलानी / बिक्री की जाएगी और देश रहित, धाद कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल जी जाएगी

स्थान: नई दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, इंडमहंड वॅक लिमिटेड विनांश: 11.04.2024

Number of Shares Allotted

75,00,000

74.99,500

100

100

100

100

100

1,50,00,000

युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताकूज (ई), मुंबई - 400 098

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

(अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत युनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्राधिक त अधिकारी के रूप में सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि भुगतान करने के लिए नीचे उल्लिखित तिथि

को डिमांड नोटिस जारी किया है। निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत 05 / 04 / 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और उक्त संपत्तियों

के साथ कोई भी लेनदेन उल्लिखित राशि के लिए यनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शल्क और उस पर ब्याज, के अधीन होगा। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा—13 की उप—धारा 8 के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर गिरवी रखी गई संपत्तियों / संपत्तियों का विवरण डिमांड नोटिस की तारीख का नाम और ऋण खाता संख्या और बकाया राशि अचल संपत्तियों का वह सारा टुकड़ा और पार्सल जैसा कि यहाँ नीचे मांग सूचना दिनांक 12.10.2023 राशि हेतु भगत सिंह वर्णित है:-2. रोशनी सी 24,05,954.35 पैसे (रुपए चौबीस लाख

खेवट / खाता नंबर 183 / 199 मुस्तातिल नंबर 9, किला नंबर 11ध्2 (1–17), ऋण खाता संख्या:-पांच हजार नौ सौ चौवन और पैसे पैंतीस 1. USFBDELLOAN000005007853 20/1 (5-7). किठवाड़ी तहसील के वाका मौजा गांव में स्थित है जिला मात्र) 11/10/2023 को प्लस लागू ब्याज पलवल. हरियाणा— 121102 और अन्य शुल्क। सीमाएँ (बंधक दस्तावेज के अनुसार) 2. USFBDELLOAN000005007857 पूर्व — 13 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – राजाराम की संपत्ति पश्चिम – करण दलाल का प्लॉट दक्षिण – जग्गू की संपत्ति

हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांकः 11/04/2024 स्थानः पलवल, हरियाणा

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL

SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117.

*Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments. NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 RIGHT ISSUE PERIOD EXTENDED ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below

Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category. ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see "Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) is Monday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 14th March: 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place: Ahmedabad

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

IndusInd Bank (d)

फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीकंस्ट्रक्शन ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्य टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के अधीन इंडसइंड बैंक को रेहन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री। एतदुद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/बंधक/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के तहत जारी की गई मांग के अनुसार उल्लिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित अनुसार बैंक की बकाया राशि और ब्याज की वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में जैसी है जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, वहां जो कुछ मौजूद है और बिना संसाधन के आधार पर बेचने के अधिकार के साथ लिया है और जबकि चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप अधोहस्ताक्षरी उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक बकाया की वसूली का प्रस्ताव करता है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री होगी वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी। खाते/बंधककर्ता और डिमांड नोटिस के अनुसार राशि व

डिमांड नोटिस तिथि गारंटर का नाम मैसर्स वेस्टर्न सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, श्री हरमिंदर सिंह, बिमलेश, 30.11.2022 को 3,63,30,855.77/- रुपये (केवल तीन करोड़ तिरेसट लाख तीस हजार आठ भवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स डब्लुएसएस सिक्योरिटी सौ पचपन रुपये तथा सतहत्तर पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023 मैसर्स डब्लूएसएस सिक्योरिटी सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, श्री हरमिंदर 31.12.2022 को 1,16,85,656.87/- रुपये (केवल एक करोड़ सोलह लाख पिचासी हजार छह सिंह, बिमलेश, भवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स वेस्टर्न सिक्योरिट सौ छप्पन रुपये तथा सत्तासी पैसे) के साथ 01.01.2023 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत, शल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023 श्री हरमिंदर सिंह, बिमलेश, भुवनेश्वर, श्री सचिन कुमार, मैसर्स 30.11.2022 को 1,27,65,234.66/- रुपये (केवल एक करोड़ सत्ताईस लाख पैसट हजार दो

वेस्टर्न सिक्योरिटी सॉल्युशंस, मैसर्स डब्ल्युएसएस सिक्योरिटी सौ चौंतीस रुपये तथा छियासठ पैसे) के साथ 01.12.2022 से आगे के ब्याज जमा उस पर लागत सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड शुल्क और व्यय आदि। डिमांड नोटिस की तिथि: 06.02.2023 बोली जमा ई-नीलामी संपत्ति का की तिथि करने की विवरण

अंतिम तिथि वृद्धिशील बोली एवं समय हरि नगर गांव नाहरपुर रूपा, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति 4.50 करोड़ रु. 30.04.2024 दो. 29.04.2024 क्रमांक 59/2 रकबा 245 वर्ग यार्ड के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्धः पूर्वः राष्ट्रीय 45.00 लाख रु. 12.00 बजे से अप. अप. 4:00 बजे तक 1:00 बजे तक राजमार्ग, पश्चिमः 20 फीट चौडी सडक, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः राम स्वरूप का घर। 1.00 लाख रु. अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- श्री यतेन्द्र कुमार,

मोबाइल नंबर १९९०७७९३७, ई-मेल आईडी:- kumar.yatendra@indusind.com नियम और शर्तै: 1. इच्छुक बोलीदाता अपने ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम

से (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से देय होगीः 00053564604005, IFSC Code- INDB0000005 उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों को या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सुचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांविधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/ऋणभार/ कर बकाया, यदि कोई होगा. के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का कड़ाई से निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छूक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं- 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर- +91-7080804466, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भगतान में किसी भी चुक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और बोलीदाता द्वारा की गई पुरी जमा राशि और बयाना राशि बिना किसी नोटिस के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चुककर्ता बोलीदाता के पास बैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई रिकॉर्स/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankeauctions.com देखें। सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणी/गारंटर/रेहनकर्ता को ई–नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज तथा अनुषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है. जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी. ब्याज व लागत के साथ वसल की जाएगी तिथि: 11.04.2024 प्राधिकत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि. स्थानः नई दिल्ली

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

1,00 कते तक

BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaltei, Ahmadabad, Gujarat - 380054, India. Telephone Number: 079 4918 5784

Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhii Shah CIN: U67190GJ2020PTC114322

Place: Panchkula, Haryana

Date: April 10, 2024

LINKIntime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI Registration No.: INR000004058

REGISTRAR TO THE ISSUE

Address: C 101, 247 Park, L.B.S. Marg. Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Maharashtra, India Tel. No.: +91-8108114949 Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: emmforce.ipo@linkintime.co.in

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER EMMFORCE AUTOTECH LIMITED Ms. Parul Gupta Address: Plot No. 287, Industrial Area, Phase II Industrial Estate Panchkula- 134113.

Harvana, India Tel No: +91-9876009999; Email: info@emmforce.com Website: www.emmforce.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com. the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Emmforce Autotech Limited, Telephone: +91-9876009999; BRLM: Beelline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and

at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of BSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI. ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited, UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors For, EMMFORCE AUTOTECH LIMITED

Ashok Mehta **Managing Director**

Disclaimer: Emmforce Autotech Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies. Delhi on April 08, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock

Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.emmforce.com, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of BSE i.e. www.bseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S

www.readwhere.com

Lucknow

under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR NOBILITY ESTATES PRIVATE LIMITED OPERATING IN RESIDENTIAL REAL ESTATE AT NOIDA, UTTAR PRADESH (Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) RELEVANT PARTICULARS Nobility Estates Private Limited CIN: U70100DL2014PTC262971 along with PAN/CIN/LLP PAN: AAECN5591J Address of the registered office New Delhi, Delhi, India, 110019 URL of website Details of place where majority of ATS Le Grandiose, Plot. No. SC01-C-A1, fixed assets are located Sector 150, NOIDA, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh, 201310 5. Installed capacity of main products/ Under-construction residential housing project namely ATS Le Grandiose, spread over an area of 80.937 sa m. Residential Tower: 20 6. Quantity and value of main products/ Not Applicable services sold in last financial year employees as on 10-04-2024 Number of employees/ workme 8. Further details including last available Drive Link: https://drive.google.com/drive/folders/ financial statements (with schedules) 1XvTpvvralrhDNH7zODhZ5egKI Rc sz of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the kindly mall on cirp.atslegrandiose@gmail.com process are available at: Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is Drive Link: https://drive.google.com/drive/folders /1XvTpvvralrhDNH7zODhZ5egKl_Rc_sz available at URL: J?usp=drive_link_Or kindly mall on cirp.atslegrandiose@gmail.com 10. Last date for receipt of expression of interest 11. Date of issue of provisional list of 06-May-2024 prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections 11-May-2024 to provisional list 13. Date of Issue of final list of 21-May-2024 prospective resolution applicants 14. Date of Issue of Information 26-May-2024 memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 15. Last date for submission of resolution plans 16. Process email id to submit EOI Date: 11 April 2024 Hitesh Goe **Resolution Professional (Nobility Estate Private Limited** Place: NOIDA Resolution Professional (Nobility Estate Private Limited, Insolvency Professional) Registration no.: IBBI/IPA-001/IP-P01405/2018-2019/12224 AFA Certificate Number: AA1/12224/02/300625/106845 (Valid till 30 June 2025; Correspondence address: One Qube Alvarez & Marsal India Professionals Services LLP 5th Floor, Unit 502, Tower A Plot No 20, Sector 18, Udyog Wihar

FORM G

इंडियन बैंक 🦝 Indian Bank

દુકાન નં. ૨ થી ૫, શાશ્વત, અનમોલ બંગલોઝની સામે, ન્યુ રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦. ફોન : ૦૯૯-૨૯૫૯૧૯૧૮ ઇ-ਮੇਕ : n588@indianbank.co.in

સિક્ચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) નિયમો ૨૦૦૨ના નિયમ ૮(૧) હેઠળ કબજા નોટીસ (સ્થાવર મિલકત માટે)

Gurugram, Haryana 122016

Emall: cirp.atslegrandiose@gmail.com E-mall: iphiteshgoel@gmail.com

આથી, નીચે સહી કરનારે **ઇન્ડિયન બેંક** ના અધિકૃત અધિકારી તરીકે सिड्योरीटार्धप्रेशन એन्ડ रिङन्स्ट्रड्शन ओइ झर्छनान्सियस अेसेट्स એन्ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્ચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ એક્ટ ૨૦૦૨ હેઠળ અને સિક્ચોરીટી ઈन्टरेस्ट (એन्डोर्समेन्ट) नियमो, २००२ ना (नियम 3) साथे वंचाती ङ्सम ९३ (૧૨) હેઠળ પ્રાપ્ત સત્તાની રૂએ ૧७.૦૧.૨૦૨૪ ની તારીખની ડિમાન્ડ નોટીસ જારી डरीने अने 39.09.२0२४ ना रो<u>े</u> पेपर प्रहाशन दारा हेवाहार **श्री वानालार्ध** ઉમાભાઈ પટેલ (દેવાદાર અને ગીરવેદાર) અને શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન પટેલ (સહ-દેવાદાર અને ગીરવેદાર) અને શ્રી ક્રિરણ વાનાભાઈ ચૌધરી (પટેલ) (સહ-દેવાદાર અને ગીરવેદાર)ને નોટીસમાં જણાવેલ તા. ૧७.૦૧.૨૦૨૪ મુજબની રા. ૧૮,૦૦,૪૬૦/- (રૂપિયા અઢાર લાખ ચારસો સાઈઠ પુરા) તરીકેની રકમ કથિત નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર પરત ચૂકવવા જણાવ્યું હતું.

हेवाहारो/लभीनहारो/गीरवेहार रङम परत युरुववामां निष्हण पतां आधी દેવાદારો/જામીનદારો/ગીરવેદારો અને જાહેર જનતાને આ નોટિસથી જાણ કરવામાં આવે છે કે નીચે સહી કરનારે કથિત નિયમોના નિયમ ૮ સાથે વંચાતી કથિત કાયદાની કલમ ૧૩(૪) હેઠળ તેમને પ્રાપ્ત સત્તાની રૂએ નીચે દર્શાવેલી મિલકતનો તારીખ ૦૯મી એપ્રિલ. ૨૦૨૪ ના રોજ કબજો લઈ લીધો છે.

ખાસ કરીને દેવાદાર/જામીનદારો/ગીરવેદાર અને જાહેર જનતાને મિલકત સાથે કોઈપણ વ્યવહાર ન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવે છે અને મિલકત સાથે કરાચેલ કોઈપણ વ્યવહારનો ચાર્જ **ઈન્ડિયન બેંક, ન્યુ રાણીપ શાખા**ની તા. ૧७.૦૧.૨૦૨૪ મુજબની રૂા. ૧૮,૦૦,૪૬૦/- (રૂપિયા અઢાર લાખ ચારસો સાઈઠ પુરા) તરીકેની રકમ અને તેની પરના ભવિષ્યના વ્યાજ અને ખર્ચાઓને रमाधिज ⊋हेशे

સિક્ચોર્ડ મિલકતો પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમય અંગે સહિત સરફૈસી કાયદાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૮)ની જોગવાઈ પ્રત્યે દેવાદારોનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

સ્થાવર મિલકતનું વર્ણન

સ્થાવર મિલકતના તમામ પીસ અને પાર્સલ ફ્લેટ નં. ઇ/૧૧, ૩જો માળ, બ્લોક ઇ એરિયા આશરે દ્ર.૭૧ યો.મી. અથવા કોમન સગવડતા અને સુખ સુવિધા સ્કીમ ભાગીતી ભાગકી એપાર્ટમેન્ટ, સૈજપુરબોદ્યા, અમદાવાદ- ૩૮૨૩૪૫ એનએ જમીન પર બાંધકામ સર્વે નં , . ૨૦૫ , ૨૪૭ , ૨૪૮ , ૨૫૭/૧ , ૨૬૧-૨૭૮ , ૨૮૦/૧-૨-૩-૪, ૨૮૧ થી ૨૯૨, ૨૯૩/૧-૨-૩-૪, ૨૯૪-૨૯૫, ૨૯૬/૧૨૯૭/૧+૨, ૨૯૮ થી 303 309/9-२-3-४ 30४ શી 39૨ 393/9 શી ૫ 333/9શી ૯33४/9-२-३ 334, 336, 380, 385/9-२-3-8, मांथी जनावेल सज प्लोट नं. २*६८* મહાવીરનગર તરીકે ઓળખાતી ચોજનામાં તમામ એકીકૃત, મોજે સૈજપુર બોઘા, તાલકો અસારવા અને જિલ્લો અમદાવાદ અને રજસ્ટ્રેશન ડિસ્ટ્રીક્ટ સબ-ડિસ્ટ્રીક્ટ અમદાવાદ-૬ (નરોડા) **ચતુઃસીમા : પૂર્વ :** ફ્લેટ નંબર ઇ-૧૨, **પશ્ચિમ :** ફલેટ નંબર ઇ-૧૦, ઉત્તર : કોમન માર્જિન સ્પેસ પછી, જયશુકન એપાર્ટમેન્ટ દક્ષિણ : સીડીઓ

તારીખ : ૦૯.૦૪.૨૦૨૪ સ્થળ : અમદાવાદ

ચીફ મેનેજર અને અધિકૃત અધિકારી ઈન્ડિયન બેંક, વતી

:~ 3:	इंडियन बैंक 🔼 Indian Bank	દક્ષિણી સોસાચટી શાખા
इंडियन बैंक 🔑	🕥 Indian Bank	
		ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૮. ફોન નંબર- ૦૯૯-૨૫૪૬૩૯૯૪.
🛕 इलाहाबाद	ALLAHABAD	ઇ-મેલ : daxinisociety@indianbank.co.in
સિક્ચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ નિયમો ૨૦૦૨ ના નિયમ ૮(૧) હેઠળ		

કબજા <u>નોટીસ</u> આથી નીચે સહી કરનાર **ઇન્ડિયન બેંક**ના અધિકૃત અધિકારીએ सिड्योरीटार्ध्रोशन भेन्ड रीडन्स्ट्रङ्शन ओङ् झयनान्सियल असेट्स भेन्ड એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિક્ચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ એક્ટ ૨૦૦૨ હેઠળ અને સિક્ચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) રૂલ્સ , ૨૦૦૨ની નિયમ સાથે વંચાતી કલમ ૧૩(૧૨) હેઠળ પ્રાપ્ત સત્તાની રૂએ **તા. ૨૩.૦૧.૨૦૨૪** ના રોજ માંગણા નોટિસ જારી કરી દેવાદાર **૧.** શ્રી જીલેશ જી ઝવેરી, રહે. ઘર નં. બી-૧૫, આરુષિ બંગલોઝ, પ્રથમા લેબ્સની પાછળ, લાવણ્યા સોસાયટી, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦७ (દેવાદાર અને ગીરવેદાર), ૨. સ્વ. શ્રીમતી અરુણાબેન જી ઝવેરી (સહ-દેવાદાર એન્ડ ગીરવેદાર અને જામીનદાર)ના કાનૂની વારસદારો શ્રી જિલેશ જી ઝવેરી રહે. રોડ, હાઉસ નં. બી-૧૫, આરુષિ બંગલોઝ પાછળ, પ્રથમા લેબ્સ પાછળ, લાવણ્યા સોસાયટી પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦७, ૩. રૂપેશ દિનેશભાઈ જસવાણી (જામીનદાર) રહે. બી/૧, વાસ એપાર્ટમેન્ટ, લાડ સોસાચટી પાસે, વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ , ૪. શ્રીમતી જીનાલી જે ઝવેરી (જામીનદાર) રહે. હાઉસ નં. બી-૧૫, આરુષિ બંગલોઝ, **પ્રથમા લેબની પાછળ, લાવણ્યા સોસાયટી પાસે, વાસણા, અમદાવાદ**ને નોટીસમાં જણાવેલ તા. ૧૯.૧૦.૨૦૨૩ મુજબની રૂા. ૨૫,૨૮,૦૫૯/- (રૂપિયા પચ્ચીસ લાખ અઠચાવીસ હજાર ઓગણસાઈઠ પુરા) તરીકેની રકમ અને તેની પરનું વ્યાજ નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર ચુકવવા જણાવ્યું હતું.

દેવાદાર/જામીનદાર/ગીરવેદાર આ રકમ પરત ચુકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી દેવાદાર/જામીનદાર/ગીરવેદાર અને જાહેર જનતાને આ નોટિસથી જાણ કરવામાં આવે છે કે નીચે સહી કરનારે સદરહુ રૂલ્સના નિયમ ૮ સાથે વંચાતી સદરહુ એક્ટની รตม 93(४) हेठण तेमने प्राप्त थयेली सत्तानी उस्रे नीचे दर्शावेली भिलङतनो તા. ૨૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૪ ના રોજ કબજો લઈ લીદ્યો છે.

આથી ખાસ કરીને દેવાદાર/જામીનદાર/ગીરવેદાર અને જાહેર જનતાને મિલકત સાથે સોદો ન કરવા સાવધ કરવામાં આવે છે અને મિલકત સાથેનો કોઇપણ સોદો ઈન્ડિયન બેંક, દક્ષિણી સોસાયટી શાખા ની તા. ૧૯.૧૦.૨૦૨૩ મૂજબની રૂા. ૨૫,૨૮,૦૫૯/- (રૂપિયા પચ્ચીસ લાખ અઠયાવીસ હજાર ઓગણસાઈઠ પુરા) તરીકેની રકમ અને તેના પરના વ્યાજને આદિાન રહેશે.

સિક્ચોર્ડ મિલકતો પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમય અંગે સહિત સરફૈસી કાયદાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૮)ની જોગવાઈ પ્રત્યે દેવાદારોનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

સ્થાવર મિલકતની વિગત

સમાનગીરો રહેણાંક મિલકત રહેણાંક બંગલો નં. બી/૧૫, આશરે ૧૫૫.૭૩ ચો.વા૨, પ્લોટ એરીયા અને ૧૬૧ ચો.વા૨ બાંધકામ (સુપ૨બિલ્ટઅ૫) તે ઉપ૨નો એરીયાની સ્કીમ જાણીતી આરૂશી બંગલોઝ આવેલ છે. જમીન ધારક રેવન્યુ સર્વે નં. ૨૭૧ પૈકી અને ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૭૨, ટી.પી સ્કીમ નં. ૨૬, મોજે વાસણા, તા. અમદાવાદ સીટી (પશ્ચિમ) ૨જી. સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ અમદાવાદ-૪ (પાલડી) અને અમદાવાદ જીલ્લો, ગુજરાત રાજ્ય. ચતુઃસીમા : પૂર્વ : બંગલો નં. બી/૧૬, પશ્ચિમ : બંગલો નં. બી/૧૪, **ઉત્તર :** એફ.પી.નં. ૭૦, ખુલ્લી જગ્યા, **દક્ષિણ :** ઈન્ટરનલ

કોલોની રોડ, ખુલ્લુ ગાર્ડન તારીખ : ૦૯.૦૪.૨૦૨૪ નોંઘ : ક્થળ : અમદાવાદ

અધિકૃત અધિકારી ઇન્ડિયન બેંક

એચડીએફ્સી બેંક લી. : ૧૧મો માળ, ટાવર બી, વીંગ # HDFC BANK श्री, स्वस्तीङ युनीवर्सव, वेदेव्हार्धन श्रीनेमा पासे, पीपवोह, सुरत - उस्प००७. मो. : ८८७६२०५५५९

પઝેશન नोटीस

૧૯.૧૨.૨૦૨૩ અને રૂા. ૧૯,૪૩,૦૫૩.૬૮/- તા. ૧૯.૧૨.૨૦૨: ના રોજ લોન અકાઉન્ટ નં. ૮૨૬૪૧૯૦૨ અને એલએપી– મોર્ગેજ–જીઈસીએલ લોન ખાતા નં. ૪૫૦૩૩૯૨૩૮

સહી/- અધિકૃત અધિકારી, એચડીએફસી બેંક લી.

(સ્થાવર મિલકત માટે) એચડીએકસી બેંક લીમીટેડ ના નીચે સહી કરનાર અધિકૃત અધિકારીએ સિક્ચોરિટાઈ)શન એન્ડ રીકન્સ્ટકશન ઓક કાયનાન્સિયલ એસેટસ એન્

ઉધારકર્તાઓ ઉપરોક્ત રકમ ચુકવવામાં કસુરવાર થતાં આથી ખાસ કરીને ઉધારકર્તાઓ અને સામાન્યત: જાહેર જનતાને નોટીસ થી જણાવવા ાાવે છે કે અધિનિયમ ૧૩(૪) ની સાથે નિયમ ૯ ને વંચાણે લેતા આપેલી સત્તાની રૂએ નીચે દર્શાવેલ તારીખે મિલકતોનો **સાંકેતિક કબજો** લીધેલ છે. ઉધારકર્તાઓ/જમીનદારો/ગીરવેદારો ને વિશેષ રૂપથી તથા જાહેર જનતાને આથી સદરહુ મિલકતો અંગે કોઈપણ જાતનો વ્યવહાર ના કરવાન તવાશી આપવામાં આવે છે. સદ્દરહુ મિલકત અંગે કરેલો કોઈપણ વ્યવહાર **એચડીએફસી બેંક લીમીટેડ** ની નીચે દર્શાવેલ રકમ પૂરી ભરપાઈ થાય ત્થ સુધી વતા વ્યાજ તથા અન્ય ખર્ચા સાંથેના બોજા સહિતનો રહેશે.

ઉદ્યારકર્તાઓ નું નામ (१) सागर टेड्स वती तेना प्रोप्राईटर सुरेन्द्र हुधेरीया / क्षेन (२) सुरेन्द्र ૧૦.૧૧.૨૦૨૩ અને રૂા. ૮,૮૦,૬૧૩.७૮/- તા. ૧૦.૧૧.૨૦૨ ના રોજ લોન અકાઉન્ટ નં. ૫૦૨૦૦૦૧૫૩૮७૮૧૮ અને પકલાલ દુધેરીયા / જેન (૩) મમતા સુરેન્દ્ર દુધેરીયા / જેન એલએપી–મોર્ગેજ–જીઈસીએલ લોન ખાતા નં. ૮૩૪૨૦७७

થાવર મિલકતનું વર્ણન :-કબજાની તારીખ : ૦૪,૦૪,૨૦૨૪

મિલકત આવેલ ફલેટ નં. બી–૪૦૨, ૪થો માળ જેનું ક્ષેત્રકળ ૧૩૨૫ સ્કે.ક્રૂટ સાથે ૪૧.૧૧ સ્કે.મીટર્સ અવિભાજીત ભાગ મેઘના કોમ્પલેક્ષની જમીનમાં રેવન્થુ સર્વે નં. ૧૫૮ અને ૧૫૯ પૈકી ખાતે સ્થિત, પ્લોટ નં. ૧ અને ૨, ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ નં. ૨૭, ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૭૬/એ ક્ષેત્રફળ ૧૫૩૪ સ્કે.મીટર મોજે મજુરા, ડિસ્ટ્રીક્ટ સુરત ખાતે આવેલ સમગ્ર મિલકત. ઉદ્યારકર્તાઓ નું નામ ડીમાન્ડ નોટીસની વિગતો અને બાકી લેણા રકમ

ક્લજાની તારીખ : ૦૪.૦૪.૨૦૨૪ યાવર મિલક્તનું વર્ણન :-મિલકત આવેલ પ્લોટ નં. પર ઉપર જેનું ક્ષેત્રફળ દ્૧.૮૦ સ્કે.મીટર્સ સાથે વિનાયક સોસાયટી પર થયેલ બાંધકામ, રેવન્યુ સર્વે નં. ૮૦/૩ ખાતે સ્થિત, બ્લો: નં. ૧૩૬/પૈકી ૧, ટાઉન પ્લાનીંગ સ્કીમ નં. ૨૦ (નાના વરાછા – કપોદરા), ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૩૦, મોજે નાના વરાછા, તાલુકા પુના, ડિસ્ટ્રીક્ટ સુરત ખાત આવેલ સમગ્ર મિલકત જેની ચર્તુઃસીમાઃ પૂર્વેઃ પ્લોટ નં. ૫૯ અને દ્દ૦, પશ્ચિમેઃ સોસાયટી રોડ, ઉત્તરેઃ પ્લોટ નં. ૫૩, દક્ષિણેઃ પ્લોટ નં. ૫૧.

શાખા ઓફીસ : પાર્ટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જયદેવ આર્કેડ, પાર્ક કોલોની, જોગર્સ પાર્ક પારે, જામનગર – ૩૬૧૦૦૮ YES BANKરજીસ્ટર્ડ એન્ડ કોર્પોરેટ ઓફીસ : ચશ બેંક લીમીટેડ, ચશ બેંક હાઉસ, ઓફ વેસ્ટર્ન અક્સપ્રેસ હાઇવે

ન્તાક્રુઝ ઈસ્ટ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૫૫ પઝેશન નોટીસ સ્થાવર મિલક્ત માટે

niથી, **યશ બેંક લીમીટેડ**ના નીચે સહી કરનાર અધિકૃત અધિકારીએ સિક્યોરિટાઈગ્રેશન એન્ડ રીકન્શ્યુકશન ઓફ ફાયનાન્સિયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્ફોર્સમે ઓક સિક્યોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ એક્ટ. ૨૦૦૨ તથા કલમ ૧૩(૧૨) હેઠળ મળેલી સત્તા સાથે સિક્યોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્કોર્સમેન્ટ) નિયમો. ૨૦૦૨ તથા નિયમ 3 અંતર્ગ રાતું સાત્રવાદાઇ છેલ્ટરેન્ટ છોડાનું જરાવોલા તે વર્ષા કુલા મેગામાં તાલા કાર્યાદાઇ છેલ્ટરેન્ટ (છોક્સાનેટ) હોવા મળેલી સત્તાની રૂએ નીચે જણાવેલ ઉદ્યારકર્તાઓ/સહ–ઉદ્યારકર્તાઓ/ગિરવેદારો ને માંગણા નોટીસ જારી કરીને નોટીસ તારીખ/ નોટીસમાં જણાવેલ રકમ. ચુકવવા જણાવેલ.

ઉધારકર્તાઓ/સહ-ઉધારકર્તાઓ/ઊરવેદારો રકમ ચુકવવામાં કસુરવાર થતાં આથી ખાસ કરીને ઉધારકર્તાઓ/સહ-ઉધારકર્તાઓ/ઊરવેદારો અને સામાન્થત જાહેર જનતાને નોટીસ થી જણાવવામાં આવે છે કે અધિનિથમ ૧૩(૪) ની સાથે નિચમ ૮ ને વંચાણે લેતા આપેલી સત્તાની રૂએ નીચે સહી કરનારે નીચે જણાવેલ (૧૦૧૧) - ૧૦૧૦ - ૧૦૧૦ -

ાલકતોનો કબજો લીધેલ છે. ાનહરતાના ઝળ્યા લાહાલ છે. ઉદ્યારકતાંઓ/સહ-ઉદ્યારકતાંઓ/ગિરવેદારો ને વિશેષ રૂપથી તથા જાહેર જનતાને આથી સદરહુ મિલકતો અંગે કોઈપણ જાતનો વ્યવહાર ના કરવાની ચેતવાર્ણ આપવામાં આવે છે. સદરહુ મિલકત અંગે કરેલો કોઈપણ વ્યવહાર **યશ બેંક લીમીટે**ડ નીચે દર્શાવેલ રકમ પૂરી ભરપાઈ થાય ત્યાં સુધી વ્યાજ તથા અન્ય ખર્યા સાથેન મોજા અદિવનો રહેશે

આ તમારા ધ્યાન પર લાવવાનું છે કે SARFAESI એક્ટની કલમ ૧૩(૮) હેઠળ, જયાં સુરક્ષિત લેણદાર દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ ખર્ચ, ચાર્જ અને ખર્ચ સાથે સુરક્ષિત લેણદારની બાકી રકમની રકમ અગાઉ કોઈપણ સમયે સુરક્ષિત લેણદારને આપવામાં આવે છે. જાહેર હરાજી / ટેન્ડર / ખાનગી કરાર માટે નોટિસન મકાશનની તારીખ, સુરક્ષિત સંપત્તિનું વેચાણ અથવા સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવશે નહીં અને તે સુરક્ષિત સંપત્તિના સ્થાનાંતરણ અથવા વેચાણ માટે આગળ કોદ

4216	તા લવામાં આવશ નહા.	
અ. નં. ઉદ્યારકર્તાઓ / સહ-ઉદ્યારકર્તાઓ / ગિરવેદારો / પ્રોપરાઈટરનું નામ		ડીમાન્ડ નોટીસની તારીખ અને બાકી લેશા રકમ
٩.	(૧) અનિલ દિનેશભાઈ પરમાર (ઉદ્યારકર્તા), અને (૨)	22.92.2023
	ગીતાલેન દિનેશભાર્થ પ્રસ્માર (સઠ-ઉધારકર્તા) (૩) ક્રિપ્તા	રૂા. ૧૨૬૪૧૧૨.૨૧/- તા. ૨૨.૧૨.૨૦૨૩ ના રોજ બાકી રકમ સાથે ઉપર
	an Changer Manua (are Genasai and Gradera)	જણાવેલ રકમ પર ચડત વ્યાજ કરાર દરે તા. ૨૩.૧૨.૨૦૨૩ થી થયેલા

(૧) ગદો સીક્વન્સ વતી તેના પ્રોપ્રાઈટર શાંતીભાઈ મોહનભાઈ ધોલીચા (૨)

ાંતીભાઈ મોહનભાઈ ધોલીચા (૩) સંગીતાબેન શાંતીભાઈ ધોલીચા

તારીખ : ૦૪.૦૪.૨૦૨૪, સ્થળ : સુરત

2 ચડત વ્યાજ કરાર દરે તા. ૨૩.૧૨.૨૦૨૩ થી થયેલ અનુસાંગીક ખર્ચાઓ કોસ્ટ, ચાર્જાસ.

22,92,2023

રૂા. ૧૩૯७૬૫૬.૫૪/- તા. ૨૨.૧૨.૨૦૨૩ ના રોજ બાકી રકમ સાથે ઉપર

મિલકતનું વર્શન :- સ્થાવર મિલકત સબ પ્લોટ નં. ૨૪૮/૧ પ્લોટ નં. ૨૪૮ ક્ષેત્રફળ ૫૯ .૯૪ સ્કે. મીટર્સ અવિભાજીત ભાગ યોગેશ્વર ધામના રોડ અને સીઓપીમાં, રેવન્થુ સર્વે નં. ૪૨૭ ખાતે આવેલ અને સ્થિત જેનું ક્ષેત્રફળ ૪–૮૮–૬૨ ખાતા નં. ૬૦૫ થી ટી/૩/બી–૧૦ અને ફાઈનલ પ્લોટ નં. ૧૦ ક્ષેત્રફળ ૪૮૮૬૨ સ્કે.મીટર્સ, ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩/બી ૨જીસ્ટ્રેશન સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ અને ડિસ્ટ્રીક્ટ જામનગર ખાતે આવેલ સમગ્ર મિલકત જેની ચર્તું:સીમા: પૂર્વે: પ્લીટ નં. ર૪૯, પશ્ચિમે: પ્લોટ નં. ર૪૮/૨, ઉત્તરે: આંતરિક રોડ, દક્ષિણે: પ્લોટ નં. ૨૪૬, (ક્બજાની તારીખ : ૦૯.૦૪. ૨૦૦૪, કબજાનો પ્રકાર : સાંકેતીક : કબજાનો પ્રકાર : સાંકેતીક કબજો)

(૧) અરવિંદ કુમાર પાંડે (ઉદ્યારકર્તા અને ગિરવેદાર), અને (૨) લોન ખાતા નં. AFH053300985200 & AFH053301013393

લોન ખાતા નં. AFH053300568004

જણાવેલ રકમ પર ચડત વ્યાજ કરાર દરે તા. ૨૩.૧૨.૨૦૨૩ થી થયેલ અનુસાંગીક ખર્ચાઓ કોસ્ટ, ચાર્જીસ. મિલકતનું વર્ણન :- મિલકત આવેલ પ્લોટ નં. ૯/૪ જેનું ક્ષેત્રફળ ૮૫.૫૦૬ સ્કે.મીટર્સ સાથે શ્રી હરિ પાર્ક-૩ માં થયેલ બાંધકામ સાથે, રેવન્યુ સલ નં. રું, પીડ ખાતે સ્થિત જામનગર એરિયા ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી મંજૂર લેઆઉટ પ્લાન અને જામનગર ક્લેક્ટર દ્વારા બિનખેતીલાયક જમીનમાં તબદીલ કરાયેલ અને ૧ થી ૫૨ માં વિભાજીત રહેણાંક પ્લોટ અને આઉટ ઓફ પ્લોટ નં. ૯ થી ૧૧ એકીકૃત અને આપેલ નવો પ્લોટ નં. ૯ અને નવો પ્લોટ સબ પ્લોટેડ સાથે ૯/૧ થી ૯/૫ ગામ દરેડ ડિસ્ટ્રીક્ટ અને સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ જામનગર ખાતે આવેલ સમગ્ર મિલક્ત જેની ચર્તુ:સીમા: પૂર્વે: સબ

પ્લોટ નં. ૯/૩, પશ્ચિમે: રોડ, ઉત્તરે: રોડ, દૂક્ષિણે: સબ પ્લોટ નં. ૯/૫. (કબજાની તારીખ : ૦૯.૦૪.૨૦૨૪, કબજાનો પ્રકાર : સાંકેતીક કબજો) (૧) **દૂધરેજીયા ચેતનભાઈ** (ઉધારકર્તા અને ગિરવેદાર), અને 30.99.2023 રૂા. ૧૧૬૧૧૯૫.૫૮/- તા. ૨૪.૧૧.૨૦૨૩ ના રોજ બાકી રકમ સાથે ઉપર (**૨) દૂધરેજીયા ચેત્તાલી** (સહ-ઉધારકર્તા અને ગિરવેદાર) જણાવેલ રકમ પર ચડત વ્યાજ કરાર દરે તા. ૨૫.૧૧.૨૦૨૩ થી થયેલા લોન ખાતા નં. AFH053300843555

અનુસાંગીક ખર્ચાઓ કોસ્ટ, ચાર્જાસ. મિલકતનું વર્ષાન :- મિલકત જે આવેલ સબ-પ્લોટ નં. ૧૮/૩, પ્લોટ નં. ૧૮, ખુલ્લો પ્લોટ ક્ષેત્રફળ ૪૭.૭૮૫ સ્કે.મીટર્સ, યોગેશ્વર નગર-૨ તરીકે જાણીતું, એફ.પી. નં. ૫૪/૧ અને ૫૪/૨, ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧, રેવન્યુ સર્વે નં. ૪૦૬, રજીસ્ટ્રેશન કિસ્ટ્રીક્ટ અને સબ-કિસ્ટ્રીક્ટ જામનગર ખાતે આવેલ સમગ્ર મિલકત જેની ચર્તુ:સીમા્: પૂર્વે: ૭.૫૦ મીટર રોડ, પશ્ચિમે: પ્લોટ નં. ૩૦, ઉત્તરે: સબ્-પ્લોટ નં. ૧૮/૪, દક્ષિણે: સબ-પ્લોટ નં. ૧૮/૨. (કબજાની તોરીખ : ૦૯.૦૪.૨૦૨૪, કબજાનો પ્રકાર : સાંકેતીક કબજો)

ઉદ્યારકતાં) (૩) કિમ્પલ રજનીકાંત પેથક (સહ-ઉદ્યારકતાં અને ગિરહાર) અને (૪) રજનીકાંત વિશંદભાઇ પેથક (સહ-ઉદ્યારકતાં અને ગિરહાર) અને (૪) રજનીકાંત વિશંદભાઇ પેથક (સહ-(૧) **નેહલ પેથડ** (ઉધારકર્તા), અને (૨) **નિધિકા પેથડ** (સહ– ઉધારકર્તા અને ગિરવેદાર)**લોન ખાતા નં.** M0R053300981136

. જણાવેલ રકમ પર ચડત વ્યાજ કરાર દરે તા. ૨૭.૦૯.૨૦૨૩ થી થયેલા અનુસાંગીક ખર્ચાઓ કોસ્ટ, ચાર્જાસ. મિલકતનું વર્ણન :- સ્થાવર મિલકત આવેલ ફલેટ નં. ૧૦૬ ક્ષેત્રફળ બિલ્ડ અપ ૬૦.૦૯ સ્કે.મીટર્સ અને સુપર બિલ્ડઅપ એરિયા ૯૫.૩૨ સ્કે.મીટર

₹.0€.₹0₹

સાથે 3.30 સ્કે.મીટર્સ ઉત્તર બાજુ ખૂલ્લુ ટેરેસ રઘુકુલ એપાર્ટમેન્ટ પ્લોટ નં. દ/એ/બી અને દૃ/સી/એ/બી પર થયેલ બાંધકામ, બિનખેતીલાય: જમીન, સર્વે નં. ૧૦૮/૧ પર આવેલ, સિટી સર્વે નં. ૬૦૭૭/૩ શીટ નં. ૨૭૮ વોર્ડ નં. ૧૫ ખોડિયાર કોલોની પાસે આવેલ, એરોડ્રોમ રોડ, રજીસ્ટ્રેશન્ સબ ડિસ્ટીક્ટ અને ડિસ્ટીક્ટ જામનગર ખાતે આવેલ સમગ્ર મિલકત જેની ચર્તુ સીમા: પર્વે: ક્લેટ નં. ૧૦૧, પશ્ચિમે: પ્લોટ નં. ૭/બી–સી, ઉત્તરે પ્લોટ નં. ૧ અને ૨, દક્ષિણે: ફ્લેટ નં. ૧૦૫. (**કબજાની તારીખ: ૦૯.૦૪.૨૦૨૪,** કબજાનો પ્રકાર : સાંકેતીક કબજો)

स्थण : स्रामनागर

સહી/- કલ્પેશ રાવલ, અધિકૃત અધિકારી, ચશ બેંક લીમીટેડ

| IDI | IE & FI | IGI

Chola

[A]

ચોલામંડલમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઈનાન્સ કંપની લિમિટેડ કોર્પોરેટ ઓફિસ : ચોલા ક્રેસ્ટ, સુપર બી, સીપ૪ અને સીપપ, ૪, થીરૂ વી કા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ગિન્ડી, ચેન્નાઈ ૬૦૦૦૦૧

ઈ-હરાજી વેચાણ નોટીસ (ફક્ત ઈ-બીડીંગ દ્વારા વેચાણ)

સિક્ચોરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એનફોર્સમેન્ટ) નિયમો, ૨૦૦૨ ના નિયમ ૮(૬) અને ૯(૧) હેઠળ જારી કરાયેલ स्थावर सुरक्षित भिलङतोनी वेथाए। नोटीस

આથી જાહેર જનતાને નોટિસ આપવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને દેશદાર(ઓ) અને જામીન આપનાર(ઓ)ને **કોલમ (A)** માં દર્શાવેલ છે કે નીરં વર્ણવેલ સ્થાવર મિલકત કોલમ(C) માં ગીરો / ચાર્જ કરેલ સુરક્ષિત લેણદારને કંબજો જેમાંથી હાઉસિંગ **ચોલામંકલમ છવ્યેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇના**ન્ કંપની લિમિટેડ સિક્ચોર્ડ ક્રેડિટરના અધિકૃત અધિકારી દારા કોલમ (D) માં વર્ણવ્યા મુજબ લેવામાં આવ્યું છે, "જેમ <mark>છે ત્યાં છે", "જેમ છે તેમ" અ</mark>ને '**જે છે ત્યાં"** પર વેચવામાં આવશે.'' નીચે દર્શાવેલ વિગતો મુજબ ઃ- આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે ઋળ લેનાર/ગીરો/કાયદેસરના વારસદાર,કાનૂની પ્રતિનિધિઓ **(જાણીતું હોચ કે પછી અજાણ્યું), વહીવટકર્તા(ઓ),** સંચાલક (ઓ), અનુગામી(ઓ) અને સંબંધિત (ઓ) ને સોંપેલો, ઋણ લેનારા(ઓ) /ગીરો મુકનાર (ઓ) (મૃત્યુ થયું ત્યારથી). સિક્ચોરિટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) રૂલ્સ ૨૦૦૨ના નિયમ ૮(૬) હેઠળ **કોલમ (A**) ના કેસમાં સૂચવવામાં આવી શકે છે. વેચાણના વિગતવાર નિયમો અને શરતો માટે, કૃપા કરીને આપેલી લિંકનો સંદર્ભ લો એના માટે **ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ** માં સુરક્ષિત ક્રેડિટિયરની વેબસાઇટ એટલે કે https://www.cholamandalam.com 8 www.auctionfocus.in

[C]

l гвт |

ı	[A]	[B]	[C]	[D]	[E&F]	[G]			
ક્રમ	લોન એકાઉન્ટ નં. દેશદાર(રો)/ગીરવેદાર(રો)/ જામીનદાર(રો)નું નામ	બાકી નીકળતા લેણાંની વસુલાત (સુરક્ષિત દેવું)	સ્થાવર મિલકતનું વર્ણન મિલકત/સિક્યુરીટી એસેટ —	પઝેશન નો પ્રકાર	રીઝર્વ કિંમત (રૂા.માં) અર્નેસ્ટ મની ડીપોઝીટ (રૂા.માં)	હરાજીની તારીખ અને સમય			
٩	લોન એકાઉન્ટ નં. XOHLSTR00002005414 ભરતભાઇ વશરામભાઇ ભાલાળા શારદાબેન ભરતભાઇ ભાલાળા રવિ ભરતભાઇ ભાલાળા હ્યા રહે: પ્લોટ નં. ૪૩, કુમ કુમ રેસીડેન્સી, કામરેજ, સુરત, કામરેજ, ગુજરાત ૩૯૪૧૮૫ અહીં પણ: પ્લોટ નં. ૧૨૮, જય વિલા-૨, કામરેજ, સુરત, કામરેજ,	રૂા. ૨૧૮૦૬૫૫/- (અંકે રૂપિયા એકવીસ લાખ એસી હજાર છસો પંચાવન પુરા) તા. ૦૯-૦૪-૨૦૨૪ મુજબ	સ્થાવર મિલકતના તમામ ભાગ અને હિસ્સા એક ટાઈપ પ્લોટ નં. ૧૨૮ ક્ષેત્રકળ ૪૪. દ૧ ચો.મી. ઉપરાંત ૨૧.૧૮ ચો.મી. અવિભાજિત જમીન રોડ અને સી.ઓ.પી. સહિત તેના પર આવેલ "જય વિલા-૨" જેનો સર્વે નં. ૪૩, બ્લોક નં. ૪૨, ખાતા નં. ૧૬૦૩ ક્ષેત્રફળ ૧૩૦૮૧ ચો.મી. મોજે કામરેજ, તાલુકો: કામરેજ, જિલ્લો: સુરત ખાતે આવેલ તેના બાંધકામ સહિત.	(કબમે)	રૂા.૧૦,૫૫,૬૧૦/- (અંકે રૂપિયા દસ લાખ પંચાવન હજાર છસો દસ પુરા) રૂા.૧,૦૫,૫૬૧/- (અંકે રૂપિયા એક લાખ પાંચ હજાર પાંચસો એકસઠ પુરા)	રદ/૦૪/૨૦૨૪ બપોરે ૦૨.૦૦ થી. ૦૪.૦૦ સુધી (ટેન્ડર દસ્તાવેજના સંદર્ભમાં દરેક ૫ મિનિટના વધારા સાથે)			
૨	લોન એકાઉન્ટ નં. HL03STR00000202 અમિતકુમાર સ્મેશલાલ બારકોલીવાળા વિદ્યા બારકોલીવાળા બંને રહે છે : ફલેટ નં. ૩૦૩, મહાકાલી પાર્ક, રાજ શોપીંગ સેન્ટર પાસે, સુરત સીટી ગુજરાત-૩૯૫૦૦૪. અહીં પણ : ન્યુ જીઆઈડીસી, કતારગામ, ફુલપાડા રોડ, રાજ શોપીંગ સેન્ટર પાસે, સુરત સીટી ગુજરાત-૩૯૫૦૦૪.	રૂા. ૨૨૩૮હ્રષ્ય/- (અંકે રૂપિથા બાવીસ લાખ અડગીસ હજાર સાતસો પંચોતેર પુરા) તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૪ મુજબ	(૧) અમિત રમેશલાલ બારડોલીવાળા અને (૨) વિધ્યા અમિત બારડોલીવાળા ની માલિકીની સ્થાવર મિલકતના તમામ ભાગ અને હિસ્સા સાથે, ફલેટ નં. ૨૦૪, બીજો માળ જેનું ક્ષેત્રફળ ૫૧.૧૮ ચો.મી. બિલ્ટઅપ એરીયા અને ૪૨.૬૫ ચો. મી કાર્પેટ એરીયા, "મહાકાલી પાર્ક" ની જમીનના વણ વહેંચાયેલ હિસ્સા સાથે. રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૬૫ પૈકી, સીટી સર્વે નં. ૫૧, ક્ષેત્રફળ ૭૯૦.૪૩ ચો.મી. મોજે ફલપાડા, સુરત સીટી.	(કબબે)	રા.૧૫,૧૨,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા પંદર લાખ બાર હત્તર પુરા) 	રદ/૦૪/૨૦૨૪ બપોરે ૦૨.૦૦ થી. ૦૪.૦૦ સુધી (ટેન્ડર દસ્તાવેજના સંદર્ભમાં દરેક ૫ મિનિટના વધારા સાથે)			
3	લોન એકાઉન્ટ નં. XOHLSTR00001941061 રામછાભાઈ ડાહ્યાભાઈ સોલંકી લેસાબની ગોલેલાભાઈ સોલંકી ગોદાવરીબેન રામછાભાઈ સોલંકી ગોદીશકુમાર રામછાભાઈ સોલંકી ગોદીશકુમાર રામછાભાઈ સોલંકી બધા ટેલેટ -30%, ત્રીજા માળે, હેમકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, મગન નગર-ર, કતારગામ, સુરત ૩૯૫૦૦૪ અઉં પણ: પ્લોટ નં. ૧૨૧ માધવ રેસીડેન્સી, કારેલી ગામ પાસે, ઓલપાડ સુરત સાયણ થી કીમ રોડ, કારેલી ગામ, ઓલપાડ -3૯૪૫૪૦	રૂા.૨૩,૩૨,૩૯૯/- (અંકે રૂપિયા ત્રેવીસ લાખ બગીસ હજાર ત્રણસો નવ્યાણું પુરા) તા.૧૦-૦૪-૨૦૨૪ મુજબ	મિલકતનો તમામ ભાગ અને હિસ્સા અને પ્લોટ નં. ૧૨૧ જેનું ક્ષેત્રફળ ૬૯.૧૭ ચો. યાર્ડ એટલે કે પ૭.૮૩ ચો.મી. સાથે ૩૫.૪૦ ચો.મી. ના વણ વહેંચાયેલો હિસ્સો જમીન રોડ અને સીઓપી. જે "માધવ રેસીડેન્સી" રેવન્યુ સર્વે નં. ૩૭૭/૨, બ્લોક નં. ૨૭૯(૨૭૯/૧૨૧) જેનું ક્ષેત્રફળ ૧-૬૮-૯૬ ચો.મી. મોજે ગામ કારેલી તા. ઓલપાડ. જી. સુરત તેના પર બાંધકામ સાથે.	(გიჟ)	રા.૧૦૨૩૨૫૫/- (અંકે રૂપિયા દસ લાખ ત્રેવીસ હજાર બસો પંચાવન પુરા) રૂા.૧૦૨૩૨૫/- (અંકે રૂપિયા એક લાખ બે હજાર ત્રણસો પચીસ પુરા)	૨૯/૦૪/૨૦૨૪ બપોરે ૦૨.૦૦ થી. ૦૪.૦૦ સુધી (ટેન્ડર દસ્તાવેજના સંદર્ભમાં દરેક ૫ મિનિટના વધારા સાથે)			
٩	૧. નિરીક્ષણની તારીખ : ૨૬-૦૪-૨૦૨૪								

ર. ઓછામાં ઓછું બીડ વધારાની રકમ રૂા. ૧૦,૦૦૦/-

૩. બિડ ભરવાની છેલ્લી તારીખ/ઈએમડી/ભાગ લેવા માટે વિનંતી પત્ર તા.૨७/૦૪/૨૦૨૪ સાંજે ૫ વાગ્યા પહેલા લોન કરારના સંદર્ભમાં ની શરતો સાથે લાગુ પડતા આગળના વ્યાજની સાથે, આકસ્મિક ખર્ચ, ખર્ચ, ચાર્જ વગેરે ચુકવણી અને/અથવા તેર્ન

પ્રાપ્તિની તારીખ સધીનો ખર્ચ.

स्थण : सुरत

કુપા કરીને ચોલામંડલમ **ઇ**ન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડના અધિકારી શ્રી સમભાજી પાટીલ નો સંપર્ક મોબાઈલ નં +૯૧ ૯૩૭૭૫૮૩૭૭૫, ઈ-મેલ આઈડીઃ sambhajidp@chola.murugappa.com અને શ્રી મોહમદ અબ્દુલ કાવી મો. ન ૭૩૦૫૯૯૦૮૭૨દ્વારા કરી શકો છો, **ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ**ના અધિકૃત અધિકારીની શ્રેષ્ઠ જાણકાર્ર

અને માહિતી માટે ઉપરોક્ત સ્થાવર મિલકતો/સુરક્ષિત અસ્કયામતોના સંબંધમાં કોઈ બોજો નથી. તા. ૧૦-૦૪-૨૦૨૪

સહી/- અધિકૃત અધિકાર્ર ચોલામંડલમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાયનાન્સ કંપની લિમિટેડ



KAMDHENU VENTURES LIMITED

[CIN: L51909HR2019PLC089207]
Regd. Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No. 9, DLF Cyber City,
Phase-III, Gurugram, Haryana-122002, Phone: 0124-4604500,
E-mail: cs@kamdhenupaints.com
Website: www.kamdhenupaints.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014, read with MCA Circulars and applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosu Requirements) Regulations, 2015 and any other applicable laws, rules, regulations and circulars, as amended, the approval of the members of Kamdhenu Ventures Limited ('the Company') is sought for the Ordinary Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot dated 03.04.2024 to be passed through Postal Ballot by voting through electronic means only.

The electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement has been dispatched or Wednesday, 10th April, 2024, only by e-mail to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent/ Depositories as on the cut-off date i.e Friday, 5th April, 2024. The nembers who have not registered their e-mail are requested to update/verify their e-mail address in the manner a set out in the Notice of Postal Ballot.

In accordance with the MCA Circulars physical copies of Postal Ballot Notice and Postal Ballot forms will not be sen to the members. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to its nembers for this Postal Ballot. The voting rights of the members shall be in proportion to their holding of equity shares in the paid-up share capital of the Company. Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut**off date I.e Friday, 5th April, 2024, shall only be entitled to cast their vote by e-voting for the Postal Ballot process.

(IST) on Saturday, 11th May, 2024 and e-voting module will not be allowed beyond the said dates. The detailer procedure and instructions for e-voting are mentioned in the Notice of the Postal Ballot. The Board of Directors has appointed Shri Rupesh Agarwal, Managing Partner or falling him Shri Shashikant Tiwari Partner of M/s. Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") fo

The e-voting period shall commence at 09:00 A.M (IST) on Friday, 12th April, 2024 and shall end at 05:00 P.M

The Notice of Postal Ballot is also available on the website of the Company www.kamdhenupaints.com and website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The results for the e-voting conducted through Postal Ballot along with Scrutinizer's Report will be announced on or before Tuesday, 14th May, 2024 on the said websites of Company, Stock Exchanges, NSDL and shall also be disclosed at the Registered office of the Company.

In case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and eoting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com. For any grievances regarding e-voting or any queries related thereto, you may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manage NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, 400 013, e-mail: evoting@nsdl.co.in or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000.

For Kamdhenu Ventures Limited,

Date: 10.04.2024

conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Nitin Misra Company Secretary & Compliance Officer M No. FCS 10131

SAWACA BUSINESS MACHINES LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L74110GJ1994PLC023926

Registered Office: 45, Chinubhai Tower, Opp. Handloom House, Ashram Road, Ahmedabad-380009, Gujarat, India Telephone:079 2658 3309 Contact person: Saurabh Shah-Company Secretary and Compliance Officer | E-mailid: sawacabusiness@yahoo.com | Website:www.sawacabusiness.com

OUR PROMOTERS: MR. SATISH RAMANLAL SHAH, MRS. JYOTSNA SATISHKUMAR SHAH, MR. VISHAL SATISHKUMAR SHAH, MR. SHETAL SATISHKUMAR SHAH AND MR. YATIN GIRISHBHAI SHAH

ISSUE OF UP TO 457639600 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.1 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 4576.396 Lakhs* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HOLDERS ON THE RECORD DATE THAT IS ON 07TH DAY, MARCH, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE"TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 117. *Assuming full subscription. Subject to finalization of the Basis of Allotments

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SAWACA BUSINESS MACHINES

RIGHT ISSUE Period extended

ISSUE CLOSE DATE (OLD) FRIDAY, APRIL 12TH, 2024 ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, APRIL 22ND, 2024

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it *Application supported by block amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, for further details check section on ASBA below Please note that in accordance with the provisions of the applicable circulars issued by SEBI, all QIBs. Non-Institutional

Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by the SEBI, shall only nvest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by the regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all the eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Right Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees , shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Right Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in Physical Form are not eligible ASBA Investors and must apply for the Rights Equity Shares only through the Non-ASBA process, irrespective of the application amounts/application category.ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non- ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details see"Terms of the Issue- Procedure For Application" on page 119 of the Letter of Offer.

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Right Issue, which opened on Tuesday, 02nd April, 2024 and scheduled to close on Friday 12th April, 2024 has now been extended by the Company from Friday 12th April, 2024 to Monday, 22ndApril, 2024, vide Board Meeting dated 10th April, 2024 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Right Issue.

Accordingly the last date of submission of the duly filled in CAF(along with the amount payable on application) isMonday 22nd April, 2024. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Right Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Monday, 22nd April, 2024. Accordingly there is no change in the OF, CAF and ALOF dated 14th March, 2024 except for the modification in the issue closing date; resultant change in ndicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM-NOTICE TO THE INVESTORS published in the advertisement dated Wednesday 10th April, 2024 which appeared in the newspaper on Thursday, 11th April, 2024.

Date: 10th April, 2024 Place : Ahmedabad

ઉદ્યારકર્તાઓ/

જામીનદારો/્ ગીરોકર્તાનું

નામ અને શાખા

શ્રી નરેન્દ્ર કાળાભાઇ પરમાર

For, Sawaca Business Machines Limited Sd/- Shetal S Shah - Managing Director

M Pub

पंजाब नैशनल बैंक **७** punjab national bank સસ્ત્ર ડીવીઝન, બીજો માળ, જે.પી. સેફાયર, રેસકોર્સ રીંગ રોડ, રાજકોટ. Email: cs8304@pnb.co.in

અચલિત મિલકતનું વર્ણન

બધા ભાગ અને અંશની સ્થાવર મિલ્કત : જે પ્લોટ ૧૦.૦૪.૨૦૨૪

તારીખ/પ્રકાર

કબજા નોટિસ (અચલિત મિલકત માટે)

આથી, નીચે સહી કરનાર **પંજાબ નેશનલ બેંક** ના અધિકૃત અધિકારીએ સિક્યુરીટાઇઝેશન અને રીકન્સ્ટકશન ઓક કાયનાન્સીયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સિકચુરીટી ઈન્ટરેસ્ટ એકટ ર ૦૦૨(૨૦૦૨નો એક્ટ નં. ૫૪) ની ધારા ૧૩ (૧૨) સાથે વંચાતા રૂલ ૮ हेठण સિકચોરીટી ઈન્ટરેસ્ટ (એન્ફોર્સમેન્ટ) નિયમ २००२ ના અંતર્ગતે નીચે દર્શાવેલ તારીખો કરંજદારો/ જામીનેદારો/ ગીરોકર્તાને ડિમાન્ડ નોટિસ જારી કરેલ હતી કે જેમાં નોટીસમાં દર્શાવેલ સદર નોટીસ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી ૬૦ દિવસોમાં ચૂકવવા જણાવવામાં આવ્યું હતું.

કરજદારો/જામીનદારો/ ગીરોકર્તા આ રકમ ચુકવવામાં અસફળ રહેલ છે, આથી કરજદારો/ જામીનદારો/ ગીરોકર્તા અને જાહે જનતાને જણાવવામાં આવે છે કે નીચે દર્શાવેલ તારીખે ઉપરોક્ત નિયમોના અંતર્ગત નિયમ ૮ ના ધારા ૧૩ (૪) ના અંતર્ગત નીચે હસ્તાક્ષર કરેલ અધિકારીએ પોતાના અધિકારથી નીચે દર્શાવેલ મિલકતનો કબજો મેળવેલ છે. મિલકતના માલિક અને જાહેર જનતાને સામાન્ય રીતે અહીંથી ચેતવણી આપવાની કે નીચે દર્શાવેલ મિલકતો અંગે કોઈ વ્યવહાર કરવો

નહીં અને મિલકતો અંગેનો કોઈપણ વ્યવહાર **પંજાબ નેશનલ બેંક** ની નીચે દર્શાવેલ બાકી રકમ અને ચક્ત વ્યાજ તથા ખર્ચા સાથે પૂરેપુરી રક્રમ ન ચકવાય ત્યાં સધી બોજાને આધીન રહેશે.

ગીરવે રાખેલ અસ્કયામતો આપેલા સમયમાં છો ડાવવા અંગે કરજદાર / જામીનદાર / ગીરોદારનું કાયદાના સેકશન ૧૩ના સબ-સેકશન (૮) ની જોગવાઈ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

डिभान्ड नोटिसनी

તારીખ અને બાકી લેણી રકમ +

डिभान्ड नोटिस

	વહારક તો) શાખા : જૂનાગઢ (૦૨૩૮૦૦)	તારીખ : ૧૯.૦૧.૨૦૨૪ રૂા. ૮,૦૯,૪૩૫.૫૧ અને તેના પરનું વ્યાજ	નં. ૮૫ પૈકીની જમીન ૫૧.૧૦ સ્કે.મી. (સબ પ્લોટ નં. ૮૫-ડી), સર્વે નં. ૧૫૦ પૈકી, આદિતીનગર- ડી, ટીંબાવાડી, જુનાગઢ શહેર ખાતે સ્થિત છે. જેની માલીકી શ્રી નરેન્દ્ર કાળાભાઇ પરમારની છે. જેની ચર્તુસિમા: ઉત્તર બાજુ: લાગુ સબ પ્લોટ નં. ૮૫/સી, દક્ષિણ બાજુ: લાગુ સબ પ્લોટ નં. ૮૪, પૂર્વ બાજુ: લાગુ સબ પ્લોટ નં. ૮૬, પશ્ચિમ બાજુ: ૧.૦૦ મીટર પહોળો રસ્તો	સાંકેતિક
2	ત્રીમતી ભાલોડીયા કિંજલબેન પારસભાઇ (ઉદ્યારકર્તા) શાખા : જૂનાગઢ (૦૨૩૮૦૦)	કિમાન્ડ નોટિસ તારીખ : ૦૯.૦૧.૨૦૨૪ રૂા. ૧૦,૬૩,૪૭૧.૪૫ અને તેના પરનું વ્યાજ	રહેણાંક ફ્લેટ નં. ૪૦૩ ની સ્થાવર મિલ્કત : જેનો બિલ્ટઅપ એરિયા ૪૫.૬૦ સ્કે.મી., ચોથો માળ, ''ગાયત્રી એપાર્ટમેન્ટ-સ'' જે પ્લોટ નં. ૭ ની ૧૪૦.૬૨ સ્કે. મી.નું માપ ધરાવતી જમીન ઉપર બંધાયેલ છે, જે બીન ખેતીલાયક રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૩૨/૧ પૈકીની કુલ જમીન ૨૭૫.૬૨ સ્કે. મી., જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની હૃદમાં, જૂનાગઢ ખાતે સ્થિત છે. જેની માલીકી શ્રીમતી કિંજલબેન પારસભાઇ ભાલીકીયા ના નામની છે. જેની ચતુંસિમા: ઉત્તર બાજુ: ફલેટ નં. ૪૦૧, કોમન દિવાલ, દ્રશિષ્ટા બાજુ: લાગુ રસ્તો, પૂર્વ બાજુ: લાગુ પ્લોટ, પશ્ચિમ બાજુ: ફલેટ નં. ૪૦૪, ફલેટનો મુખ્ય દરવાજો અને કોમન દિવાલ	૧૦.૦૪.૨૦૨૪ સાંકેતિક
3	શ્રીમતી શાહ સોનલબેન પ્રદિપભાઇ (ઉદ્યારકર્તા) અને શ્રી શાહ પ્રદિપભાઇ ડાચાલાલ (સઠ-ઉદ્યારકર્તા)	કિમાન્ડ નોટિસ તારીખ : ૨૪.૦૧.૨૦૨૪	રહેણાંક મકાન બિલ્કીંગ ધરાવતી મિલ્કત : જે વેરાવળના ટી.પી. ૧, એફ.પી. ૨૫, બીનખેતી લાચક જમીનના રેવન્યુ સર્વે નં. ૧૨૧૦, ૧૨૧૨ થી ૧૨૧૫ના પ્લોટનં. ૩૯ પૈકી પશ્ચિમ બાજની ૪૮-	

	ત્રાદ પ્રદિપભાઇ ડાચાલાલ શ્રી શાહ પ્રદિપભાઇ ડાચાલાલ (સહ-ઉઘારકર્તા) શાખા : વેરાવળ (૦૪૭૫૨૦)	તારાખ: ૨૪.૦૧.૨૦૨૪ રૂા. ૨૭,૧૬,૬૫૬.૫૬ અને તેના પરનું વ્યાજ	પરાયંગના ટા.પા. ૧, અક્ષ.પા. ૧૫, ખાનખતા લાચક જમીનના રેવન્થુ સર્વે નં. ૧૧૧૦, ૧૧૧૨ થી ૧૧૧૫ના પ્લોટનં. ૩૯ પૈકી પશ્ચિમ બાજુની ૪૮- ૦૦ સ્કે. મી. નું માપ ધરાવતી જમીન ઉપર બંધાચેલ છે. જે શ્રીમતી સોનલબેન પ્રદિપભાઇ શાહ ના નામની છે. જેની અર્તુસિમા: ઉત્તર બાજુ: લાગુ ૫.૫૦ મીટર પહોળો રસ્તો, દક્ષિણ બાજુ: લાગુ પ્લોટનં. ૩૮ ની મિલ્કત, પૂર્વ બાજુ: લાગુ પ્લોટનં. ૩૯ પૈકીની, કોમન દિવાલ, પશ્ચિમ બાજુ: લાગુ પ્લોટનં. ૪૦ ની મિલ્કત	
8	શ્રી શાસ્ત્રી ચિરાગ લક્ષ્મણભાઇ (ઉદ્યારકર્તા) શાખા : જૂનાગઢ (૨૦૮૭૨૦)	કિમાન્ડ નોટિસ તારીખ : ૧૬.૧૧.૨૦૨૩ રૂા. ૧,૦૨,૫૪૬.૮૪ અને તેના પરનું વ્યાજ	ફલેટ નં. 5 : જેનો બિલ્ટઅપ એરિયા ૫૦-૮૮ સ્કે.મી. છે તે ત્રીજો માળ, સીટી સર્વે બ્લોક નં. ૧૫ ઉપર બંધાચેલ"દ્ધારકેશ એપાર્ટમેન્ટ", સીટી સર્વે નં. ૯૨/૨, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની હૃદમાં, કાઠીયાવાક જૂનાગઢ, ખાતે સ્થિત છે. જે શ્રી ચિરાગકુમાર લસ્ત્રણભાઈ શાસ્ત્રી ના નામનો છે.	સાંકેતિક

બાજુ : લાગુ મિલ્કત

બાજુ : રસ્તો**, ઉત્તર બાજુ :** લાગુ મિલ્કત, **દક્ષિણ**

(આ નોટિસનું અંગ્રેજીમાંથી અન્ય ભાષામાં અનુવાદ કરતી વખતે કોઈ ક્ષતિ થયેલ જણાશે તો કાયદાકીય રીતે અંગ્રેજી લખાણ જ માન્ય ગણાશે)